


मूल्य : 10 रुपये प्रति
 वार्षिक मूल्य : 100 रुपये



सूचना
 सर्वस्यता डाइरेक्टरी
 का जल्द ही प्रकाशन
 फार्म संलग्न

सम्मेलन विकास

अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन का मुखपत्र

► जुलाई 200९ ► वर्ष ५९ ► अंक ७

राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक


दिनांक : शनिवार, ४ जुलाई 200९ को सम्पन्न



अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी सभा का दृश्य



“अन्तर्जातीय विवाह—कुछ अनुभव”
 विषय पर गोष्ठी का आयोजन



राउरकेला में नवनिर्मित “महाराजा अग्रसेन भवन”
 समाज को समर्पित

wonder *i*mages



Leading solvent printing unit for outdoor & indoor ad.

- Crystal clear digital printing with vutek machine, on Flex, SAV, One way vision, UK Media, Mesh, Lamination, Canvas, etc.
- 40,000 sq ft per day production capacity.
- No compromise in quality.

Wonder images Pvt. Ltd.

2 Brabourne Road, Kolkata - 700 001

Ph : 2225 1862/3/4/5, 9830425990, Fax : 91-33-2225 1866

email : wonder@cal2.vsnl.net.in



समाज विकास

जुलाई २००९ ♦ वर्ष ५९ ♦ अंक ०७ ♦ एक प्रति-१० रु. ♦ वार्षिक-१०० रु.

संपादक : नंदकिशोर जालान ♦ कार्यकारी संपादक : शंभु चौधरी

जैसे-जैसे आजादी की तरफ देश ने कदम रखना शुरू किया, महात्मा गांधी जी के विदेशी वस्त्र जलाओ आन्दोलन या अन्य पिकेटिंग आन्दोलनों से, समाज की महिलाओं को भी इन आन्दोलनों के कुछ रचनात्मक कार्यों की तरफ लगातार देखा गया। कलकत्ते की सड़कों पर समाज की महिलायें रात के अंधेरे में समाचार पत्र बांटने का कार्य या हॉस्पिटलों में आन्दोलनकारियों को भोजन खिलाने जैसे कार्य करने लगी थीं। वास्तव में देखा जाय तो यहीं से समाज में शिक्षा के विषय में भी नई सोच उत्पन्न हुई। — नन्दलाल रूंगटा

पृष्ठ-७ पर

अनुक्रमणिका

क्रमांक	पृष्ठ संख्या
चिट्ठी आई है	४
डायरेक्टरी फार्म	५
अपनी बात — शंभु चौधरी	६
अध्यक्षीय — नन्दलाल रूंगटा	७
जंतर-मंतर — सीताराम शर्मा	८
संगोष्ठी: "अन्तर्जातीय विवाह — कुछ अनुभव"	९
राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक	१०
राउरकेला: 'महाराजा अग्रसेन भवन' का उद्घाटन	११
अखिल भारतवर्षीय समिति सदस्यता सूची	१२-१७
नये आजीवन सदस्यों की सूची	१८
मेरा भारत महान: द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी	१९
नये संरक्षक सदस्यों की सूची	२०
राजस्थानी शब्दकोष	२३-३५
युगपथ चरण	३७-३८

स्वत्वाधिकारी :

अखिल भारतवर्षीय मारवाडी सम्मेलन ♦ १५२बी, महात्मा गाँधी रोड, कोलकाता-७००००७

फोन : ०३३-२२६८ ०३१९ ♦ E-mail: samajvikas@gmail.com

के लिए श्री भानीराम सुरेका द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित तथा ऐथल प्रिंटर्स प्रा.लि., ४५बी, राजाराम मोहन राय सरणी, कोलकाता-७००००९ में मुद्रित प्रकाशित रचनाओं से सम्पादकीय सहमति अनिवार्य नहीं है।

विड़ी आई है :

निरखा-परखा और बांचा

लगभग साठ बरस की जवान पत्रिका का प्रेरणादायी अंक जून २००९ मिला। निरखा-परखा और बांचा। समाज विकास मारवाड़ी समाज का सही प्रतिनिधित्व करती है। १० करोड़ राजस्थानी भाषा-भाषियों के लिए एक सशक्त प्रवक्ता की तरह काम करती है। सीताराम शर्मा का जंतर-मंतर स्तम्भ पसन्द आया। हास्य कथा लेखक नथमल केडिया का तो अपना अलग ही रंग है। शंभु चौधरी और स्व. यादवेन्द्र शर्मा की कहानी दिल को छूने वाली है। संस्मरण में कुसुम खेमानी का स्मरण लेख 'भागीरथ कानोड़िया' काफी प्रभावशाली और प्रेरणादायक रहा। ऐसी निःस्वार्थ विभूतियाँ मारवाड़ी समाज में यत्र-तत्र बिखरी पड़ी हैं। भागीरथ जी तो एक मूक, निस्वार्थ विभूति थे जिन्होंने समर्पण भाव से समाज की सेवा की। राजस्थानी कहानतें और लोक कथाओं में उनका योगदान प्रेरणादायी है। आप समय-समय पर अन्य दिवंगत आत्माओं का संस्मरण लेख लिखवा कर प्रकाशित करें, इससे हमारे समाज का मस्तक और ऊँचा होगा। ♦

- नागरज शर्मा, विणजारे प्रकाशन, पिलानी

विनय सरावगी

झारखण्ड प्रा. मा. सम्मेलन
के अध्यक्ष निर्वाचित



विनय सरावगी

श्री विनय सरावगी झारखण्ड प्रान्तीय मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उन्होंने अपने प्रतिद्विन्दी को ८२ मतों से पराजित किया। श्री विनय सरावगी को ११० एवं श्री धर्मचंद बजाज को २८ मत मिले।

श्री विनय सरावगी सुप्रसिद्ध समाजसेवी, उद्योगपति एवं अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हनुमान सरावगी के छोटे सुपुत्र हैं।

श्री सरावगी झारखण्ड प्रान्तीय मारवाड़ी सम्मेलन में प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं प्रान्तीय मंत्री के पद पर अपना महत्वपूर्ण योगदान दे चुके हैं। ♦

सूचना

सदस्यता डाइरेक्टरी
का प्रकाशन जल्द ही होने जा
रहा है। कृपया
आप अपना विवरण
संलग्न फार्म में
भरकर भेजें।

आपको सूचित करते हुए अपार खुशी
है कि अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी
सम्मेलन अपने सभी पदाधिकारियों एवं
सदस्यों की डाइरेक्टरी सन् २००९-२०१०
का प्रकाशन करने जा रहा है।

सदस्यता सूचना फार्म पृष्ठ पाँच पर
दिया जा रहा है। जिसे आप शीघ्रताशीघ्र
भरकर निम्न पते पर भेजने की कृपा
करें।

सधन्यवाद!

: फार्म भेजने का पता :

रवीन्द्र कुमार लड़िया
चेयरमैन,

डाइरेक्टरी प्रकाशन उपसमिति
अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन
१५२-बी, महात्मा गांधी रोड
कोलकाता - ७०० ००७

फार्म संलग्न 
(Please Use Xerox copy of This Form)

E-mail: samajvikas@gmail.com

ESTD. 1935

Tele Fax: (033) 2268 0319



ALL INDIA MARWARI FEDERATION

(Regd. Under W.B. Societies Act- XXVI of 1961)

152-B, Mahatma Gandhi Road, Kolkata- 700 007

MEMBER INFORMATION FORM

(Please Use Zerox copy of This Form)

Photo

Photo

Full Name :

Father's / Husband's Name :

Address (Office) :

..... Pin Code : State :

Phone Nos. With STD Code : ()

Address (Residence) :

..... Pin Code : State :

Phone Nos. With STD Codes : ()

Mobile No. : Fax : ()

E-mail : Website :

Date of Birth : Mariage Date :

Qualification : Occupation :

Native Place : Dist. : State :

Married / Un-Married:..... Wife Name :

Name of Home Branch : Dist. : State :

Your Position in state / National Committee :

Your Membership-Branch / State / National Type of Membership :

Note : ♦ Please Enclose (2) passport size photo

♦ Name of the members & State written on the reverse of the photograph.

मारवाड़ी समाज की बदलती तस्वीर

मारवाड़ी समाज की बदलती तस्वीर के बारे में आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। आप सभी को याद होगा कि जैमनी कौशिक बरुआजी ने कोलकाता में लगभग दो-तीन दशक पूर्व कई सीरिज में एक ग्रन्थ का प्रकाशन किया था—“**मैं मारवाड़ी समाज को प्यार करता हूँ**” इस पुस्तक का कोई अस्तित्व नहीं रहा, कारण कि समाज के कुछ चुने हुए एवं संपन्न परिवारों की स्तुति के अलावा उस पुस्तक में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे समाज अपने पास बचा कर रख पाता। इससे पूर्व उड़ीसा के पं. भैरवलाल नन्दवाना, पत्रकार ने लगभग ६० साल पहले एक पुस्तक लिखी थी—“**उड़ीसा और मारवाड़ी समाज**” जिसमें समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का प्रयास किया गया था। इस पुस्तक में लिखा है “उड़ीसा में मारवाड़ी समाज के जागृति के आधार

— श्री सीताराम सेकसरिया और श्री बसन्तलाल मुरारका” एक बार तो मैं भी चौंक गया, समाज के इन मनीषियों का उड़ीसा से क्या लेना-देना, परन्तु जब इतिहास बोलता है तो उसे स्वीकार कर लेना पड़ता है।

पिछले दिनों हमने ‘वागर्थ’ में श्रीमती कुसुम खेमानी द्वारा लिखा संस्मरण ‘भागीरथ कानोड़िया’ पर लेख पढ़ा। तो लगता है कि मारवाड़ी समाज ने जो कार्य किये उसमें राष्ट्रीयता की झलक तो देखने को मिलती ही है समाज की तत्काल जरूरतों को भी पूरा करने के लिये कई संस्थाओं का जन्म हुआ था, परन्तु आज समाज सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति में लगा है। युग का यह परिवर्तन डॉ.डी.के.टकनेत की पुस्तक “**मारवाड़ी समाज**” में भी देखने को मिलता है। जबकि एक समय स्व. राधाकृष्ण नेवटिया के द्वारा लिखी, संकलित पुस्तक “**राजनीतिक क्षेत्र में मारवाड़ी समाज की आहुतियाँ**” इस काल के समय लिखी बातों में समाज की सोच दर्शाती है। इन पुस्तकों में जो तस्वीर मारवाड़ी समाज की झलकती है उनके द्वारा किये कार्यों के अनुपात में आज के कार्यों में काफी ह्रास देखने को मिल रहा है। कितना गौरवशाली हमारा समाज था जिसकी तस्वीर आज हमें खोजनी पड़ रही है, उनके किये कार्यों के संस्मरणों को पढ़ने से मन रोमांचित हो उठता है और कहाँ आज का समाज है जो अपने धन का प्रदर्शन करने की होड़ में लगा है। लोग खुद के किये कार्यों के प्रचार में लगे हैं। समाज के कुछ अच्छे लोग जो आज भी अपने धन को जनसेवा के कार्य में लगा रहे हैं उसमें काफी कमी आई है, जबकि पहले की अपेक्षा आज

समाज के पास धन की कोई कमी नहीं, समाज के पास कार्य करने के संसाधन भी बढ़े हैं। बल्कि समाजसेवा के नाम पर दुकानदारी करने वाले की भीड़ ने उनके धन का गलत इस्तेमाल कर उनका विश्वास खो दिया है। पिछले दो दशकों में कोई भी ऐसी एक संस्था सामने नहीं आई जो निःस्वार्थ भाव से जनसेवा का कार्य कर रही हो। समाज की कुछ संस्थाएँ तो पॉफिट संस्था बन कर रह गईं, जिनमें सिर्फ धन की ऊपज जारी है, साथ ही समाज में कई ऐसी संस्थाएँ भी हैं जो धन के अभाव में अपना दम तोड़ने के कगार पर हैं। समाज में आई इस नैतिक मूल्यों में गिरावट के लिये हम खुद को ही दोषी मानते हैं।

दो दशक पूर्व एक लेख ने मुझे काफी प्रभावित किया था।

‘समाज विकास’ में प्रकाशित डॉ. कमल किशोर गोयनका का वह लेख — “एक से अनेक होकर लौटा” आज जब हम समाज के कार्यक्रमों में जाते हैं तो खुद को अलग-थलग पाते हैं। आप और हम नित्य नये कार्यक्रम करते हैं परन्तु इन कार्यक्रमों में समाज सेवा या समरसता की

सच तो यह है कि मारवाड़ी समाज ने जितना जनसेवा का कार्य किया है, उसे देख कर यदि यह भी लिख दिया जाय, कि इसकी तुलना में एक हिस्सा कार्य भी मदर टरेसा ने नहीं किया तो कोई चूक नहीं होगी, परन्तु समाज को आजतक कोई नोबल पुरस्कार नहीं मिल सका। हर व्यक्ति खुद को स्थापित करने की दौड़ में लगा हुआ है और समाज का धन पानी की तरह बहे जा रहा है।

कोई झलक देखने को नहीं मिलती, समाचार पत्र वाले हमारे कार्यक्रमों की खिल्ली उड़ाने नजर आते हैं, हम हैं कि खुद की फोटो समाचार पत्रों में देखकर फूले नहीं समाते। रोजाना औसतन पूरे देश में करोड़ रुपये से भी अधिक की राशि समाज के द्वारा विभिन्न मदों (जनसेवा के कार्यों) में खर्च हो रही है। परन्तु इसके संकलित आंकड़ों के अभाव में समाज के कार्यों का सही तरीके से आंकलन नहीं किया जा सका है। सच तो यह है कि मारवाड़ी समाज ने जितना जनसेवा का कार्य किया है, उसे देख कर यदि यह भी लिख दिया जाय, कि इसकी तुलना में एक हिस्सा कार्य भी मदर टरेसा ने नहीं किया तो कोई चूक नहीं होगी, परन्तु समाज को आजतक कोई नोबल पुरस्कार नहीं मिल सका। हर व्यक्ति खुद को स्थापित करने की दौड़ में लगा हुआ है और समाज का धन पानी की तरह बहे जा रहा है।


समाज की इस बदलती तस्वीर के लिये हम किसे दोषी ठहरायें—किसे नहीं? इतना जरूर है कि समाज का एक वर्ग मारवाड़ी समाज की दानशीलता के गलत इस्तेमाल में लगा है। समाज की सही तस्वीर को प्रस्तुत करने के लिए जरूरी है कि समाजसेवा के नाम पर नाटक करने वाले ऐसे तत्त्वों को समाज से अलग-थलग किया जाना चाहिये। *

—शम्भु चौधरी

अध्यक्षीयः

उच्च शिक्षा: आज की आवश्यकता

- नन्दलाल रौंगटा, अध्यक्ष,
अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन



एक समय था जब मारवाड़ी समाज के लिये यह कहावत चरितार्थ थी कि **“पढ़कर के करैगो- घर के कारोबार कुण देखती”** परन्तु आज स्थिति बिलकुल ही विपरीत है, जिस समाज की महिलायें एक समय परदे के भीतर जीवन यापन किया करती थीं, वे ही आज न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में, उच्चशिक्षा के क्षेत्र में भी अपना शीर्षस्थ स्थान प्राप्त करने में युवाओं से किसी भी प्रकार से पीछे नहीं हैं। हम यह तो नहीं कह सकते कि अन्य समाजों की तरह मारवाड़ी समाज ने उन्नति का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है लेकिन इतना अवश्य है कि हमने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हुए शिक्षा क्षेत्र में संतोषप्रद उन्नति प्राप्त की है।

प्रतिद्वन्द्विता के इस युग में भी समाज ने अपनी पहचान **“कठिन मेहनत और ईमानदारी”** का त्याग नहीं किया है। आज समाज के युवक एवं युवतियाँ अपने परम्परागत व्यवसाय के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में काफी तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक समय था जब समाज के बच्चों को १०वीं कक्षा पास हो जाने पर उसे पढ़ा-लिखा मात्र लिया जाता था। लड़कियों की स्थिति तो इससे भी बदतर थी। उनके पढ़ने का अर्थ समाज में बच्ची को बिगाड़ना तक माना जाता था। कहने का तात्पर्य यह है कि एक समय था जब मारवाड़ी समाज शिक्षा के क्षेत्र को अपनाने में काफी संकोच करता था। धीरे-धीरे समाज की इस सोच में काफी बदलाव देखने को मिला। १९वीं शताब्दी के अन्तिम दौर में समाज के कुछ जागरूक युवाओं ने धीरे-धीरे शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। इसके परिणाम काफी सुखद देखने को मिले, समाज के बच्चों को महाजनी, पहाड़ा, क,ख,ग, पढ़ाने लगे। इस परम्परागत तरीके से पढ़ाने वाले शिक्षकों को हम गुरुजी कहा करते थे। धीरे-धीरे इन पाठशालाओं में कुछ समस्या देखने को मिली। जिनमें प्रमुखतः (१) लड़के ही इस पाठशाला में पढ़ने जाते थे (२) पांचवी कक्षा के बाद इन पाठशालाओं में पढ़ाई नहीं हो पाती थी। इस समस्या का समाधान जगह-जगह **“हिन्दी विद्यालय”** को खोल कर किया गया। आज देश के प्रायः सभी अहिन्दी भाषी प्रान्तों के हिन्दी विद्यालय इस बात के सबूत हैं। जैसे-जैसे आजादी की तरफ देश ने कदम रखना शुरू किया, महात्मा गांधी जी के विदेशी वस्त्र जलाओ आन्दोलन या अन्य पिकेटिंग आन्दोलनों से, समाज की महिलाओं को भी इन आन्दोलनों के कुछ रचनात्मक कार्यों की तरफ लगातार देखा गया। कलकत्ते की सड़कों पर समाज की महिलायें रात के अंधेरे में समाचार पत्र बांटने का कार्य या हॉस्पिटलों में आन्दोलनकारियों को भोजन खिलाने जैसे कार्य करने लगी थीं। वास्तव में देखा जाय तो यहीं से समाज में शिक्षा के विषय में भी नई सोच उत्पन्न हुई। इस क्रान्तिकारी कदम ने समाज के उत्साही युवकों को काफी आधार प्रदान किया और शुरू हो गई महिलाओं

के लिये विद्यालय खोलने की बात। कोलकाता का सबसे पहला महिला विद्यालय जो आज भी बड़ाबाजार में स्थित है— **“मारवाड़ी बालिका विद्यालय”** जो एक समय आजादी के आन्दोलनकारियों का केन्द्र बिन्दु भी बन गया था। आगे चलकर देश के कई हिस्सों में समाज के लड़के-लड़कियों के लिये विद्यालय खुलते चले गये। इस काल में प्रवासी राजस्थानी-हरियाणवी समाज (जिसे देश के सभी हिस्सों में मारवाड़ी समाज के रूप में जाना जाता है।) में शिक्षा के प्रति लगाव देखा गया। इसे मारवाड़ी समाज के लिये **“शिक्षा का परिवर्तन काल”** भी कहा जा सकता है।

२०वीं शताब्दी के शुरुआती काल में शिक्षा के क्षेत्र में देश ने काफी प्रगति की, इस समय तक देश में उच्च शिक्षा का बोलबाला हो चुका था। उच्चशिक्षा ग्रहण करने के लिये देश के विभिन्न हिस्सों से सक्षम परिवार के बच्चे विदेशों में **“विशेषकर इंग्लैण्ड”** जाकर पढ़ने लगे थे। जिसकी अन्य समाज तो मान्यता देता था, परन्तु मारवाड़ी समाज के शुद्ध शाकाहारी होने के चलते उच्च शिक्षा को मान्यता देने की बात तो दूर, विदेश यात्रा करने की बात पर भी हंगामा खड़ा हो जाता था तथा समाज से बहिष्कृति का सामना करना पड़ता था। एक समय जो समाज अपने बच्चों को विदेश जाने पर अंकुश लगाता रहा था, आज हमारे समाज के युवक-युवतियाँ उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने के लिये बड़ी संख्या में विदेश जा रहे हैं। २१वीं शताब्दी की चुनौतियों का सामना करने की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं।


आर्थिक वैश्वीकरण एवं प्रतिस्पर्द्धा के वर्तमान युग में समाज को नयी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। विश्व एक छोटे से गाँव का रूप ले रहा है। ज्ञान एवं विज्ञान का महत्व आज प्रत्येक क्षेत्र में सर्वोपरि है। मारवाड़ी समाज को उच्चतम तकनीकी शिक्षा को प्राप्त कर अपनी सर्वश्रेष्ठता को कायम रखना है। समाज ने व्यापार-उद्योग के अलावा शिक्षा, साहित्य, संस्कृति, कला, खेल, ज्ञान-विज्ञान सभी क्षेत्रों में नयी उपलब्धियाँ हासिल कर समाज की नयी तस्वीर को उजागर किया है।

उच्च शिक्षा, देशी अथवा विदेशी मंहगी होती जा रही है। मारवाड़ी सम्मेलन ने इस क्षेत्र में पहल की है जिससे कोई भी मेधावी एवं जरूरतमंद छात्र-छात्रा अर्थाभाव में उच्च शिक्षा से वंचित नहीं रह सके। समाज के साधन-सम्पन्न महानुभावों से मेरी विशेष प्रार्थना है कि वे इस पक्ष में पूर्ण समर्थन एवं सहयोग प्रदान करें। विभिन्न प्रान्तीय सम्मेलनों द्वारा वर्षों से शिक्षा कोष का सफलता पूर्वक संचालन किया जा रहा है। अब समय आ गया है जब ये कोष उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को प्राथमिकता प्रदान कर समाज को अग्रगति प्रदान करेंगे। ♦

जंतर-मंतर

- ♦ अन्तर्जातीय विवाह
- ♦ फिजूलखर्ची एक दिखावा

- सीताराम शर्मा



अन्तर्जातीय विवाह

पिछले दिनों अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन ने “अन्तर्जातीय विवाह – कुछ अनुभव” विषयक एक संगोष्ठी का कोलकाता में आयोजन किया। गोष्ठी के विषय की घोषणा के साथ ही समाज में एक सुगबुगाहट आरम्भ हो गयी। समर्थन के स्वर के साथ-साथ इस तरह के विषयों पर सम्मेलन द्वारा गोष्ठी आयोजित करने पर दबी जुबां में विरोध के स्वर भी सुनने को मिले।

मुझे २००२ का वाकया स्मरण हो आया जब हैदराबाद में आन्ध्र प्रदेश मारवाड़ी महिला सम्मेलन द्वारा “क्या अन्तर्जातीय विवाह उचित है” विषयक एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था। सम्मेलन के तत्कालीन महामंत्री के रूप में समापन वक्तव्य के लिये मुझे आमंत्रित किया गया था। करीबन एक घण्टे से अधिक विभिन्न महिला वक्ताओं को, जिनमें बुजुर्ग, वयस्क, युवतियाँ—विवाहित एवं अविवाहित सभी शामिल थीं को सुना। विषय की समझ, वैचारिक परिपक्वता एवं स्पष्टवादिता ने मुझे अत्यधिक प्रभावित किया। जब मेरे बोलने की बारी आयी तो मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि “विषय के पक्ष या विपक्ष पर मैं नहीं बोलना चाहता, मुझे तो इस बात पर सन्तोष एवं गर्व है कि मारवाड़ी समाज की महिलायें जो कुछ दशक पहले तक पर्दे में रहती थीं, शिक्षा का अभाव था, वह मारवाड़ी महिला समाज आज मारवाड़ी सम्मेलन के बैनर के तले एकत्रित होकर इन विषयों पर खुलकर चर्चा कर रही हैं।”

मारवाड़ी सम्मेलन एक वैचारिक संस्था है जो विचार परिवर्तन के माध्यम से समाज सुधार एवं समरसता का कार्य करती है। समाज के सम्मुख जो भी प्रश्न, समस्याएँ, कुरीतियाँ प्रस्तुत होती हैं उन पर सम्मेलन विचार कर समाज को उनसे आगाह करता है। विभिन्न समय पर विभिन्न सामाजिक प्रश्नों पर सम्मेलन ने कार्य किया है चाहे वह पर्दा प्रथा हो या मृत भोज, विधवा विवाह हो या तलाक, दहेज या दिखावा, समरसता या राजनीति में भागीदारी, टूटते परिवार या बुजुर्गों के प्रति सम्मान में कमी—समय के साथ-साथ प्रश्न बदलते गये हैं।

उक्त गोष्ठी में चार अन्तर्जातीय विवाहित जोड़ों को अपने अनुभव बाँटने के लिए आमंत्रित किया गया था। दो जोड़े पधारे एवं दो जोड़े अंतिम समय पर अनिर्णय की स्थिति में नहीं आ सके। एक जोड़े ने बड़ी अच्छी बात कही कि “वे बिना अपने माता-पिता के आशीर्वाद के विवाह नहीं करना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने सात वर्ष तक इन्तजार किया। अब वे खुश हैं और उनके परिवार भी।”

यह एक सच्चाई है कि सभी माता-पिता अपने लड़के-लड़की का विवाह अपनी जाति में ही करना चाहते हैं, यह उनकी प्राथमिकता भी है, एक सामाजिक मान्यता भी। अन्तर्जातीय विवाह अभी भी एक अपवाद के रूप में है। विभिन्न समाजों में पिछले वर्षों में इसमें एक बढ़ोतरी हुयी है, अपना मारवाड़ी समाज भी इससे अछूता नहीं है। आज के सामाजिक जीवन में अन्तर्जातीय विवाह एक यथार्थ के रूप में उभर कर आ रहा है। सम्मेलन कभी भी किसी भी विषय पर चर्चा करने से नहीं कतराया है। समाज के समक्ष जो भी परिस्थितियाँ हैं, उनसे आँख मूँद लेना कूपमण्डूकता होगी। सच्चाई का सामना करते हुए उस पर विवेचना कर समाज को सही दिशा प्रदान करना सम्मेलन का कर्तव्य बनता है। किसी विषय पर बातचीत या मुक्त चर्चा करना न तो उसका समर्थन है न ही उसका विरोध।

फिजूलखर्ची एक दिखावा : हेलीकॉप्टर से फूल बरसाये


“मर्ज बढ़ता गया, ज्यों-ज्यों दवा की” — यह कहावत अपने समाज पर भी लागू होती है। विवाहों में फिजूलखर्ची एवं दिखावे के विरुद्ध जनमत बनाने के हर प्रयास विफल हो रहे हैं। दिखावा बढ़ता ही जा रहा है। एक पक्ष का मत है कि इस बीमारी की दवा ही गलत है इसलिए मर्ज तो बढ़ना ही है। अपील, आचार संहिता, प्रार्थना, मन परिवर्तन के प्रयास कारगर साबित नहीं हो सकते। यह पक्ष “भय बीन होय न प्रीत” के समर्थक हैं एवं दिखावे तथा फिजूलखर्ची के विरुद्ध प्रदर्शन एवं आन्दोलन की हिमायत करते हैं। उनका मानना है कि मारवाड़ी सम्मेलन की वैवाहिक फिजूलखर्ची एवं दिखावे को रोकने में असफलता का यही कारण है।

इस दिखावे और फिजूलखर्ची का एक और नमूना हाल ही में हैदराबाद में देखने को मिला जब हाईटेक सिटी स्थित एच. आई.सी.सी. में अशोक केडिया की पुत्री मनीषा एवं प्रमोद टिबरेवाल के पुत्र विकास के विवाह समारोह में हेलीकॉप्टर से फूल बरसा कर बारात का स्वागत किया गया। इनको सम्मेलन कैसे समझाये कि आपके फूल समाज के लिये अंगारे साबित हो रहे हैं।♦

“अन्तर्जातीय विवाह - कुछ अनुभव”

नई पीढ़ी अपनी बात मनाने से पहले सोचे

- नन्दलाल रूंगटा



श्रीमती उमा झुनझुनवाला माइक पर अपने अनुभव रखती हुई, पास में विवाहित जोड़े संदीप बजाज एवं रीता बजाज (यादव)। सामने मंच पर दायें से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हरिप्रसाद कानोड़िया, सम्मेलन सभापति श्री नन्दलाल रूंगटा, पूर्व अध्यक्ष श्री सीताराम शर्मा, कोषाध्यक्ष आत्माराम सोंथलिया।

कोलकाता: दिनांक ११ जुलाई कोलकाता स्थित “दी कोलकाता ट्रामवेज कम्पनी” के सभागार में अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा आयोजित एक सेमिनार “अन्तर्जातीय विवाह कुछ अनुभव” विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी की अध्यक्षता सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नन्दलाल रूंगटा ने की। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि अन्तर्जातीय विवाह एक सामयिक विषय है। सम्मेलन हमेशा से सम-सामयिक विषयों पर ऐसी संगोष्ठियाँ आयोजित करते आया है। जहाँ वक्ता अपने निजी विचार व्यक्त करते हैं और समाज उस पर चिन्तन करता है। आपने आगे कहा कि सम्मेलन अन्तर्जातीय विवाह विषय पर अपनी कोई राय नहीं रखता, यहाँ विचार रखने वालों के विचार उनके खुद के विचार माने जायेंगे। अन्तर्जातीय विवाह के संदर्भ में सम्मेलन की कोई राय अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं बन पाई है, परन्तु समाज के युवाओं में इसके बढ़ते प्रचलन के प्रति समाज के बच्चों को इसके दूरगामी परिणाम के प्रति सजग करना भी हमारा कर्तव्य बन जाता है। समाज के अभिभावक नई पीढ़ी के समक्ष अपनी बात किस प्रकार से रखें या नई पीढ़ी अपनी बात मनाने से पहले अभिभावकों के समक्ष किस प्रकार का आचरण करे यह बात समाज को सोचने के लिये मजबूर कर रही है। पूर्व अध्यक्ष श्री सीताराम शर्मा ने कहा कि सम्मेलन का काम सामाजिक बुराईयों पर लोगों की सोच में वैचारिक परिवर्तन लाना है। हम

मन परिवर्तन कर सामाजिक बुराईयों पर अंकुश लगाने के पक्षधर हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ मारवाड़ी समाज ही एक ऐसा समाज है जहाँ सम्मेलन जैसी संस्था है जो स्वयं में सुधार का प्रयत्न करती है। इस मौके पर श्रीमती उमा झुनझुनवाला ने अपने अनुभव बयान करते हुए युवाओं को संदेश दिया कि उन्हें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे उनके परिवारवालों को कोई ठेस पहुँचे। प्रो. अजहर ने इस बात पर खुशी जताई कि मारवाड़ी समाज में ऐसे विषयों पर संगोष्ठी आयोजित की जाती है। एक अन्तर्जातीय विवाहित जोड़े संदीप बजाज एवं रीता बजाज (यादव) ने भी अपने खुशहाल वैवाहिक जीवन का जिक्र करते हुए कहा कि किसी को ठेस पहुँचाकर किया गया कार्य सफल नहीं होता। जो माँ-बाप हमें पाल-पोस कर बड़ा करते हैं वे हमारा भला सोचते हैं। इसलिए ऐसे मामलों में उनकी रजामंदी काफी अहमियत रखती है। हमें उनको विश्वास में लेकर ही कोई अहम कदम उठाना चाहिए। इस मौके पर श्री जयगोविन्द इन्दौरिया, एडवोकेट तारा व्यास ने अन्तर्जातीय विवाह से उत्पन्न हो रही विभिन्न समस्याओं पर प्रकाश डाला। उपाध्यक्ष हरिप्रसाद कानोड़िया, कोषाध्यक्ष आत्माराम सोंथलिया आदि मंचस्थ थे। धन्यवाद ज्ञापन संयोजक कैलाशपति तोदी तथा संचालन संयुक्त राष्ट्रीय महामंत्री संजय हरलालका ने किया। सह संयोजक दिलीप गोयनका ने आगत अतिथियों का स्वागत किया।♦

राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक

दिनांक : शनिवार, 4 जुलाई 2009 को सम्पन्न



मंच पर बायें से सर्वश्री राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री संजय हरलालका, रा.उपाध्यक्ष बन्नीप्रसाद भीमसरियां, रा.कोषाध्यक्ष आत्माराम सौंथलिया, सम्मेलन सभापति श्री नन्दलाल रूंगटा, राष्ट्रीय महामंत्री राम अवतार पोद्दार, पूर्व अध्यक्ष श्री सीताराम शर्मा, रा.उपाध्यक्ष ओमप्रकाश खण्डेलवाल एवं रा.उपाध्यक्ष हरिप्रसाद कानोडिया

अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन की द्वितीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक शनिवार, 4 जुलाई 2009 को द कान्क्लेव, 216 आचार्य जगदीशचंद्र बोस रोड, कोलकाता-17 में दोपहर 12.30 बजे अपराह्न सम्पन्न हुई। सम्मेलन सभापति श्री नन्दलाल रूंगटा ने अध्यक्षता की।

सभापति ने सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए उनका अभिनन्दन किया। उन्होंने बताया कि अभी हाल ही में देश में सम्पन्न हुए लोकसभा चुनाव में काफी संख्या में अपने समाज के लोग चुनकर आए हैं, सम्मेलन की तरफ से भी उन्हें बधाई पत्र प्रेषित किये गये हैं जिनमें से कुछ के जवाब भी आये हैं।

फिक्स डिपोजिट : श्री रूंगटा ने बताया कि गत 6 माह में 72 संरक्षक, 42 आजीवन तथा 98 विशिष्ट सदस्य बने हैं जिससे प्राप्त राशि में से 37 लाख रुपयों की फिक्स डिपोजिट करा दी गई है। इसके लिए आपने उपस्थित सभी सदस्यों को धन्यवाद देते हुए अपील की कि जो सदस्य अभी तक संरक्षक सदस्य नहीं बने हैं वे इसमें सहभागी बनें तथा जो बन गये हैं वे भी और सदस्य बनाने का प्रयास करें। उन्होंने बताया कि मेरी इच्छा है कि एक ऐसा 'कोर्पस फण्ड' बने जिससे सम्मेलन के दैनिक खर्चों हेतु असुविधा न हो। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इन रुपयों का सिर्फ ब्याज ही खर्च किया जा सकेगा। आपने उपस्थित सदस्यों से 'समाज विकास' में विज्ञापन रूपी सहयोग देने की भी अपील की।

आपने बताया कि 152-बी, महात्मा गांधी रोड, कोलकाता में स्थित सम्मेलन के मुख्य कार्यालय की स्थिति चिन्ताजनक है। कार्यालय में मरम्मत की आवश्यकता है। अखिल भारतीय समिति के चुनाव के सम्बन्ध में आपने बताया कि गत 13 जून 2009 को चुनाव अधिकारी श्री संजीव कडेल की देखरेख में चुनाव सम्पन्न हो

गये हैं। संविधान के अनुसार, अखिल भारतीय समिति हेतु 29 लोगों को नोमिनेट करने का भार अध्यक्ष को सौंपा गया।

संविधान संशोधन : अध्यक्ष ने बदलते समय के अनुसार सम्मेलन के संविधान में भी संशोधन पर बल दिया। संविधान संशोधन हेतु श्री नन्दलाल सिंहानिया की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई गई जिसमें सर्वसम्मति से श्री सीताराम शर्मा, श्री रतन शाह, श्री गोपाल अग्रवाल, श्री गोविन्द डालमिया, श्री कमल नोपानी का नाम कमेटी हेतु प्रस्तावित व पारित हुआ।

कौस्तुभ जयन्ती : आगामी वर्ष सम्मेलन की 'कौस्तुभ जयन्ती' मनाने पर चर्चा करते हुए श्री रूंगटा ने इसकी रूपरेखा तय करने हेतु श्री सीताराम शर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया जिस पर सबने सहमति जताई।

इससे पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री श्री रामअवतार पोद्दार ने गत बैठक की कार्यवाही प्रस्तुत की जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया।

राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री आत्माराम सौंथलिया ने 2008-09 का आय-व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया, जिसे श्री अरुण गुप्ता ने प्रस्तावित किया तथा श्री रविन्द्र कुमार लडिया ने समर्थन दिया। सर्वसम्मति से लेखा-जोखा पारित हुआ। इसके अलावा उन्होंने वित्तीय वर्ष 2009-10 के तीन महीनों के आय-व्यय का ब्यौरा भी दिया।

अंत में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवचरण माधुर, पश्चिम बंगाल मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष श्री विश्वनाथ सुल्तानिया तथा बिहार सम्मेलन के वरिष्ठ सदस्य श्री बाबूलाल बोहरा के निधन पर उन्हें दो मिनट का मौन रख कर श्रद्धांजलि दी गई।

सभी को धन्यवाद के साथ सभा समाप्ती की घोषणा।

राउरकेला :

‘महाराजा अग्रसेन भवन’ का लोकार्पण



सर्वश्री नंदलाल रूंगटा, (अध्यक्ष, अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन), डॉ. प्रसन्न पाटसानी (लोकसभा सदस्य), श्री रामेश्वरलाल जी काबरा, श्री मनोज अग्रवाल, श्री शारदा प्रसाद नायक, मंत्री उडिसा राज्य सरकार एवं श्री सुदेन्द्र लाठ, अध्यक्ष, उत्कल प्रा.मारवाड़ी सम्मेलन

महाराजा अग्रसेन सेवा संघ, राउरकेला द्वारा निर्मित 'महाराजा अग्रसेन भवन' का उद्घाटन समारोह दिनांक बुधवार, ३ जून २००९ को बड़े धूमधाम से भव्य रूप से मनाया गया। समारोह की अध्यक्षता श्री अरुण अग्रवाल ने की। भवन का उद्घाटन आधुनिक ग्रुप ऑफ इण्डस्ट्रीज के प्रबन्ध निदेशक श्री मनोज अग्रवाल के कर-कमलों से श्री शारदा प्रसाद नायक, मंत्री उडिसा राज्य सरकार के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न हुआ। सम्मानित अतिथि में सर्वश्री नंदलाल रूंगटा, (अध्यक्ष, अ. भा. मारवाड़ी सम्मेलन), डॉ. प्रसन्न पाटसानी (लोकसभा सदस्य), श्री रामेश्वरलाल काबरा International President Friends of Tribal Society member तथा श्री सुदेन्द्र लाठ, अध्यक्ष, उत्कल प्रदेशिक मारवाड़ी सम्मेलन तथा पूर्व लोकसभा सदस्य ने समारोह में उपस्थित रहकर उसकी गरिमा और गौरव को बढ़ाया।

उक्त अवसर पर सभी आमंत्रित महानुभावों ने अपने-अपने उद्बोधन में ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए महाराजा अग्रसेन भवन को एक वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना निरूपित किया। ऐसा विशाल भव्य भवन सभी के लिए एक दर्शनीय स्थल बनेगा इसमें कोई शक नहीं है। सभी अतिथि महानुभावों का पुष्प गुच्छ साफा

एवं दुपट्टा द्वारा स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि श्री शारदा प्रसाद नायक ने अपने भाषण में भवन के लिए आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर, सड़क तथा महाराजा अग्रसेन के नाम से एक चौक निर्माण का आश्वासन दिया।

द्वितीय सत्र में डॉ. प्रसन्न पाटसानी लोकसभा सदस्य के मुख्य आतिथ्य में संघ के सक्रिय एवं समर्पित कार्यकर्ताओं, दान दाताओं को सम्मानित किया गया। श्री अरुण कुमार अग्रवाल चेयरमैन को उनके अथक समर्पित अविस्मरणीय सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया तथा सम्मान-पत्र प्रदान किया गया।

तृतीय सत्र में संगारां सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया।

श्रीमती सीमा शर्मा (राजस्थान की लता मंगेशकर) के ग्रुप द्वारा एक उत्कृष्ट राजस्थानी तथा हरियाणा के लोक गीतों का समा बांध देने वाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया।

समारोह में न केवल स्थानीय जन साधारण सामाजिक संस्थाओं के सम्मानित अतिथियों ने भारी संख्या में भाग लिया वरन पड़ोसी राज्यों से भी अतिथियों ने अपनी उपस्थिति से समारोह की शोभा बढ़ाई। समारोह की भव्यता देखते ही बनती थी।

अन्त में अति स्वादिष्ट रात्रि भोजन का आनन्द सभी ने लिया। ♦

अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन

अखिल भारतवर्षीय समिति सदस्य सूची

पदेन सदस्य

श्री नन्दलाल रूंगटा	चाईबासा	राष्ट्रीय अध्यक्ष
श्री हरि प्रसाद कानोडिया	कोलकाता	राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
श्री राजकुमार पुरोहित	मुंबई	राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
श्री गणेश प्रसाद कंदोई	उड़ीसा	राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
श्री बद्री प्रसाद भीमसरिया	पटना	राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
श्री ओम प्रकाश खण्डेलवाल	गुवाहाटी	राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
श्री रामविलास सावू	हैदराबाद	राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
श्री राम अवतार पोद्दार	कोलकाता	राष्ट्रीय महामंत्री
श्री ओमप्रकाश पोद्दार	कोलकाता	राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री
श्री संजय हरलालका	कोलकाता	राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री
श्री आत्माराम सोंथलिया	कोलकाता	राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष

भूतपूर्व अध्यक्ष / महामंत्री

श्री नन्दकिशोर जालान	कोलकाता	राष्ट्रीय अध्यक्ष
श्री हरिशंकर सिंहानिया	कोलकाता	राष्ट्रीय अध्यक्ष
श्री हनुमान प्रसाद सरावगी	रांची	राष्ट्रीय अध्यक्ष
श्री मोहनलाल तुलस्यान	कोलकाता	राष्ट्रीय अध्यक्ष
श्री सीताराम शर्मा	कोलकाता	राष्ट्रीय अध्यक्ष
श्री रतन शाह	कोलकाता	राष्ट्रीय महामंत्री
श्री भानीराम सुरेका	कोलकाता	राष्ट्रीय महामंत्री

संरक्षक सदस्य

१. श्री अतुल चूड़ीवाल	कोलकाता	१९. श्री विमल कुमार पाटनी	कोलकाता
२. श्री चिरंजीलाल अग्रवाल	कोलकाता	२०. श्री हरिप्रसाद अग्रवाल	कोलकाता
३. श्री श्याम सुन्दर कानोडिया	कोलकाता	२१. श्री महेश पेरिवाल	रामगढ़
४. श्री मुकुन्द रूंगटा	चाईबासा	२२. श्री राज कुमार शाह	चाईबासा
५. श्री हेमन्त कानोडिया	कोलकाता	२३. श्री अशोक कुमार पटवारी	झाड़ग्राम
६. श्री हर्षवर्द्धन नेवटिया	कोलकाता	२४. श्री संजय अग्रवाल	रायपुर
७. श्री अनिल सोंथलिया	कोलकाता	२५. श्री मुरारी लाल सरावगी	विशाखापट्टनम
८. श्री अमित शर्मा	कोलकाता	२६. श्री विजय शारदा	नई दिल्ली
९. श्री संतोष सराफ	कोलकाता	२७. श्री सुरेन्द्र कुमार डालमिया	भुवनेश्वर
१०. श्री राजेश पोद्दार	कोलकाता	२८. श्री जगदीश प्रसाद चौधरी	कोलकाता
११. पदाधिकारी	कोलकाता	२९. श्री हरि किशन अग्रवाल	राउरकेला
१२. श्री राजेन्द्र खण्डेलवाल	कोलकाता	३०. श्री प्रवीन अग्रवाल	कोलकाता
१३. श्री विवेक गुप्त	कोलकाता	३१. श्री हरिचरण गुप्ता	बड़बिल
१४. श्री सज्जन भजनका	कोलकाता	३२. श्री हरि प्रसाद बुधिया	कोलकाता
१५. श्री रामचन्द्र रूंगटा	रामगढ़	३३. श्री पद्म कुमार जैन	सिंहभूम
१६. श्री सीताराम अग्रवाल	कोलकाता	३४. श्री अजय कुमार बजाज	पटना
१७. श्री विश्वम्भर दयाल सुरेका	कोलकाता	३५. श्री मनोज धनधरिया	कोलकाता
१८. श्री महेश कुमार अग्रवाल	बड़बिल	३६. श्री धर्म चन्द्र अग्रवाल	कोलकाता

३७. श्री वसन्त कुमार अग्रवाल
३८. श्री अरुण अग्रवाल
३९. श्री संतोष सरावगी
४०. श्री रविन्द्र चमड़िया
४१. श्री विनोद कुमार अग्रवाल
४२. श्री कमल कुमार अग्रवाल
४३. श्री अजय सराफ
४४. श्री वजरंग अग्रवाल
४५. श्री संजीव कुमार पटवारी
४६. श्री संजय सुरेका (भानू सेवा)
४७. श्री हरिकृष्ण चौधरी
४८. पदाधिकारी
४९. श्री रामस्वरूप हूँगा
५०. श्री प्रमोद कुमार नेवटिया
५१. श्री नन्द किशोर अग्रवाल
५२. श्री राज कुमार दाधीच
५३. श्री मधुसुदन डालमिया
५४. श्री नारायण प्रसाद डालमिया
५५. श्री घनश्यामदास अग्रवाल
५६. श्री प्रह्लाद राय अग्रवाल
५७. श्री दिलीप कुमार गोयल
५८. श्री शंकर लाल अग्रवाल
५९. श्री भगवती प्रसाद जालान
६०. श्री संजय सुरेका (कॉन्कास्ट)
६१. श्री प्रमोद कुमार शर्मा

- कोलकाता
राउरकेला
गिरीडीह
कोलकाता
कोलकाता
रायपुर
होसपेट
सुन्दरगढ़
कोलकाता
कोलकाता
कोलकाता
रांची
चाईबासा
कोलकाता
राउरकेला
कोलकाता
कोलकाता
कोलकाता
कोलकाता
जमशेदपुर
दुर्गापुर
कोलकाता
कोलकाता
चाईबासा

६२. श्री बजरंग लाल मित्तल
६३. श्री जगदीश चन्द्र अग्रवाल
६४. श्री भगत राम गुप्ता
६५. श्री आनन्द कुमार अग्रवाल
६६. श्री मदनलाल अग्रवाल
६७. श्री राधेश्याम अग्रवाल
६८. श्री राजेन्द्र तोसावड
६९. श्री कमल किशोर सारडा
७०. श्री रामनाथ झुनझुनवाला
७१. श्री बनवारीलाल मित्तल
७२. श्री आशीष अग्रवाल
७३. श्री रघु हरि डालमिया
७४. श्री दशरथ कुमार गुप्ता
७५. श्री नीतिन महेश्वरी
७६. श्री राजकुमार अग्रवाल
७७. श्री जगदीश प्रसाद पांडिया
७८. श्री संदीप काबरा
७९. श्री दीनदयाल पोद्दार
८०. श्री अमित बेरलिया
८१. श्री संजीव कुमार डाबरीवाल
८२. श्री प्रेम कुमार लिहला
८३. श्री सज्जन कुमार सराफ
८४. श्री विनोद कुमार अग्रवाल
८५. श्री दाऊ दयाल अग्रवाल
८६. श्री नन्द किशोर अग्रवाल

- कोलकाता
कोलकाता
भुवनेश्वर
रायपुर
कटक
जमशेदपुर
कोलकाता
रायपुर
कोलकाता
कोलकाता
रायगढ़
नई दिल्ली
कोलकाता
जमशेदपुर
कटक
कटक
जमशेदपुर
राउरकेला
राउरकेला
कोलकाता
कोलकाता
कोलकाता
कोलकाता
कोलकाता
कटक
राउरकेला

आंध्र प्रदेश

१. श्री अनिल कुमार अग्रवाल
२. श्री अजित वर्मा
३. श्री ओम प्रकाश दायमा
४. श्री अनिल कुमार अग्रवाल
५. श्री कन्हैयालाल पाण्डे
६. श्री गौरीशंकर माखरिया
७. श्री चम्पालाल इनानी
८. श्री चैनसुख कावरा
९. श्री नरेश चन्द्र विजयवर्गीया (महामंत्री)
१०. श्री नन्दकिशोर व्यास
११. श्री परसराम महेन्द्र कुमार इनानी

- हैदराबाद
हैदराबाद
निजामाबाद
सिकन्दराबाद
हैदराबाद
अदिलाबाद
निजामाबाद
हैदराबाद
हैदराबाद
हैदराबाद
निजामाबाद

१२. श्री पुरुषोत्तमदास मूंधड़ा
१३. श्री बाबूलाल पनवार
१४. श्री ब्रिज गोपाल लुनानी
१५. श्री रमेश कुमार बंग (अध्यक्ष)
१६. श्री रामप्रकाश भंडारी
१७. श्री राम सिंह चौहान
१८. श्री रामगोपाल गोयनका
१९. श्री श्याम सुन्दर अग्रवाल
२०. श्री सोहन लाल कड़ेल
२१. श्री सीताराम बजाज
२२. श्री त्रिलोक चन्द हिरावत

- हैदराबाद
हैदराबाद
आलूर
हैदराबाद
हैदराबाद
हैदराबाद
हैदराबाद
निजामाबाद
हैदराबाद
सिकन्दराबाद
विशाखापट्टनम

उत्तर प्रदेश

१. श्री अनिल के. जाजोदिया
२. श्री किशन जोशी
३. श्री गोपाल अग्रवाल
४. श्री गोपाल सुनवाला (महामंत्री)
५. श्री गोपाल किशन कानोड़िया
६. श्री मयंक बजाज

- वाराणसी
उन्नाव
कानपुर
कानपुर
कानपुर
लखनऊ

७. श्री राजकुमार नेवटिया
८. श्री रमेश मारोलिया
९. श्री राजेश कसेरा
१०. श्री सुशील तुलस्यान
११. श्री सोमप्रकाश गोयनका (अध्यक्ष)
१३. श्री प्रमोद अग्रवाल

- कानपुर
कानपुर
कानपुर
कानपुर
कानपुर
उत्तराखंड

उत्कल

१. श्री ओमप्रकाश बापोदिया	राउरकेला	१४. श्री विजय कुमार केडिया (महामंत्री)	सम्बलपुर
२. श्री ओमप्रकाश लाठ	भुवनेश्वर	१५. श्री विशेषश्वरलाल चौधरी	बोलंगीर
३. श्री ईश्वरचन्द्र जैन	टीटागढ़	१६. श्री शंकरलाल गुप्ता	कटक
४. श्री किशनलाल अग्रवाल	कालाहाण्डी	१७. श्री श्याम सुन्दर अग्रवाल 'एडवोकेट'	बरागढ़
५. श्री किशनलाल भरतिया	कटक	१८. श्री शंकरलाल भूत	कटक
६. श्री जय प्रकाश लाठ	बरागढ़	१९. श्री सुरभजन जैन	कालाहाण्डी
७. श्री मदनलाल झुनझुनवाला	सम्बलपुर	२०. श्री सुरेन्द्र लाठ (अध्यक्ष)	सम्बलपुर
८. श्री मनसुख सेठिया	भुवनेश्वर	२१. श्री सूरजभान जैन	टीटागढ़
९. श्री मंगतूराम अग्रवाल	सम्बलपुर	२२. श्री सुरेश बोदिया	झारसुगुडा
१०. श्री मटुराम अग्रवाल	कालाहाण्डी	२३. श्री हरिकिशन अग्रवाल	राउरकेला
११. श्री मंगतूराम अग्रवाल	सम्बलपुर	२४. श्री हजारीमल ओझा	सम्बलपुर
१२. श्री मानिक चन्द अग्रवाल	कालाहाण्डी	२५. श्री हरि किशन अग्रवाल	सुन्दरगढ़
१३. श्री वेद प्रकाश अग्रवाल	बोलंगीर	२६. श्री ज्ञान प्रकाश अग्रवाल	सम्बलपुर

छत्तीसगढ़

१. श्री अर्जुनलाल अग्रवाल	बिलासपुर	९. श्री शिवनारायण टावरी	रायपुर
२. श्री कैलाशचंद दहिया	रायपुर	१०. श्री शरदकुमार सराफ	राजनांदगाव
३. श्री गणपत मंत्री	दुर्ग	११. श्री सूरज रतन मूंधड़ा	रायपुर
४. श्री गनपतराय मंत्री	भिलाई	१२. श्रीमती सावित्री देवी मंत्री	भिलाई
५. श्री बी. एल. जैन (अध्यक्ष)	रायपुर	१३. श्री संतोष अग्रवाल	रायपुर
६. श्री रामानन्द अग्रवाल	रायपुर	१४. श्री सीताराम अग्रवाल	रायपुर
७. श्री रमेश सिंघानिया	रायपुर	१५. श्री हरि शंकर शर्मा (महामंत्री)	रायपुर
८. श्री रमेश संघी	रायपुर		

झारखण्ड

१. श्री अभय कुमार सराफ	देवघर	१५. श्री जगदीश प्रसाद डोकानिया	पाकुड़
२. श्री अनिल मुरारका	चाईबासा	१६. श्री जमुना प्रसाद शर्मा	रामगढ़
३. श्री अशोक कुमार गोयल	जमशेदपुर	१७. श्री देवी प्रसाद डालमिया	जामताड़ा
४. श्री ओमप्रकाश सिंघानिया	कोडरमा	१८. श्री धरमचन्द बजाज	रांची
५. श्री अशोक कुमार जैन	गिरीडीह	१९. श्री धरमचन्द जैन 'राय' (महामंत्री)	रांची
६. श्री ओमप्रकाश अग्रवाल	बोकारो	२०. श्री नन्द किशोर पाटोदिया	रांची
७. श्री अरुण कुमार बुधिया	रांची	२१. श्री नरेश अग्रवाल	चाईबासा
८. श्री ओम प्रकाश छाछड़िया	देवघर	२२. श्री परमात्मा राम बथवाल	मधुपुर
९. श्री कमल कुमार केडिया	रांची	२३. श्री परमेश्वरलाल गुटगुटिया	देवघर
१०. श्री किशोरीलाल माली	देवघर	२४. श्री प्रकाशचन्द पंसारी	चाईबासा
११. श्री केदारमल पलसानिया	जमशेदपुर	२५. श्री पुरुषोत्तम शर्मा	चाईबासा
१२. श्री गोविन्द प्रसाद डालमिया	देवघर	२६. श्री पवन शर्मा	रांची
१३. श्री गोवर्धन प्रसाद गाड़ोदिया	रांची	२७. श्री पवन पोद्दार	रांची
१४. श्री चंडी प्रसाद डालमिया	रांची	२८. श्री पवन कुमार चांडक	सिंहभूम

D

Daam दाम - value
Daangara डांगरा - cattle
Daankhala डांखळा - straw
Daat दात - utensils, clothes, ornaments etc offered to bridegroom and his relatives by bride side in marriage
Daayjo दायजो - dowry
Dadi दादी - grandmother
Dado दादो - grandfather
Dairi डैरी - a field with flat land in arid areas
Dantali दंताळी - implement to level ground
Dalidar दळिदर - poor
Dana दाणा - grains
Dawdi डावडी - term used to address a female with affection
Dedo-dedo डेडो-डेडो - not straight, oblique, at a distance
Deel डील - body
Deesawar दीसावर - foreign
Deeval दीवळ - white ants
Devar देवर - younger brother of husband
Derani देराणी - wife of husband's younger brother
Dhabalo धाबळो - traditional petticoat made of wool, decorated with kasheeda and lawan
Dhale ढळे - falling down
Dhamal धमाळ - falgun folk songs
Dhani ढाणी - small hamlet of one or a few houses
Dhaggyo धापग्यो - satisfied
Dharo ढारो - room used for storage of fodder for animals
Dharo धडो - barter
Dharo धाडो - loot
Dhaulo धोळो - white
Dhavlo धवळो - white
Dhedh ढेढ - alternate name of harijan
Dhinganon धिंगाणों - forcibly
Dhiro ढीरो - twigs of jhadberi cut and used for fodder or fencing
Dholi ढोली - drum beater

Dholo ढोलो - traditional hemi-spherical ceiling
Dhoongari ढूंगरी - heap of gwar pods
Dharo धोरो - a long radiating sand dune found in desert which are formed due to piling up of shifting sand
Dhuaro धुआरो - a brass metal pitcher to milk cow
Dhuro धुडो - sand
Dhunga ढुंगा - rectal hips
Dhyangi ध्यानगी - daily wages
Dhyankyo ध्यानक्यो - farm labour
Dinchhipe दिनछिपे - sunset
Dindhale दिनढळे - sunset, evening
Dinuge दिनूगे - sunrise
Doka डोका - straw of bajra
Dol डोल - a big container made of tin
Doliyo डोलियो - a small container
Do'ro दो'रो - difficult
Dungari ढूंगरी - hillock
Dyorani द्योराणी - wife of husband's younger brother
F
Fad फड - story of Pabuji depicted on canvas
Fajiti फजीती - insult
Fali फळी - pod
Falko फलको - bread of wheat
Falso फळसो - main gate
Fini फीणी - an ornament worn on forehead beneath boralo
Footari फूटरी - beautiful
France फ्रांस - a fast growing arid zone tree with leaves similar to a pine tree botanical name Tamarix articulata
Fugo फुगो - baloon
G
Gadadi गादडी - fox
Gailo गैलो - way, a man of foolish nature
Gainon गैणों - ornaments
Gairo गैरो - dark
Gajban गजबण - Lover (Woman), wife

Gali गळी - a narrow passage in a fencing, street
 Gamgi गमगी - lost
 Gandasi गंडासी - variety of axe
 Gangaur गणगौर - The spring festival of Gangour, symbolic of the ripened harvest is held in honour of Gauri, the goddess of abundance. The image of the diety is carried in a procession by gaily dressed men and women. A sight more exhilarating than the entire population of a city thus assembled for the purpose of rejoicing is hard to imagine.
 Gaontara गामतरा - village tour
 Gasio गासियो - mouthful
 Gatto गट्टो - pucca terrace made around a tree, a wooden utensil to keep paan for smoking
 Gaur गौर - a shed or pen or place used for keeping cattle
 Geegan गीगन - sky
 Geend गींड - dirt of eyes
 Geer गीर - Start and sing the song [Geet geer dyo]
 Ger गेर - Rajasthani folk-dance
 Gero गेरो - weak boy
 Ghaba घाबा - clothes
 Ghagharo घाघरो - petticoat
 Ghal घाल - to give
 Ghana घणा - very much
 Ghang घांग - weak
 Ghankhara घणखरा - mostly, mainly
 Ghardeeth घरदीठ - housewise
 Ghee घी - butter
 Ghilodyo घिलोडियो - pot used to heat ghee
 Ghin घिन - repulsive feelings
 Ghinad घिनड़ - Rajasthani folk-dance
 Ghoba घोबा - pain
 Ghol घोळ - to dissolve, solution
 Ghol-mathol घोळ-मथोळ - to mix, to confuse
 Ghoto घोटो - mace, an epithet of Hanuman
 Ghugario घूगरियो - a small bell, an ornament worn around the ankles

Ghughari घूगरी - boiled cereals distributed on special occasions
 Ghumar घूमर - Rajasthani folk-dance
 Ghungo घूंगो - solid sticky nasal matter
 Ghunghato घूंगतो - a veil which conceals the face of a woman
 Gindi गिण्डी - ball
 Gobalia गोबळिया - green fresh leaves of khejri tree
 Goda गोडा - knee
 Gokhroo गोखरू - seeds of a grass used to feed cattles
 Gokhru गोखरू - Bracelets
 Goo गू - latrine
 Goon गून - gum
 Goontho गूंटो - thumb
 Gora गौरा - fair colour, a britisher
 Gorband गोरबंद - decoratives used for camels
 Gormo गोरमो - path for cows in a village, cows and bedfellows sent for grazing in group
 Gordi गोरडी - wife
 Goto गोटो - laces used to decorate their dresses
 Govo गोवो - path for cows in a village
 Gudari गुदडी - a mattress made of used clothes but of small size used for children
 Gudaro गुदडो - a mattress made of used clothes
 Gugoji गूगोजी - folk-deity
 Gumado गुमडो - bowl
 Gunthalo गुंथळो - rope made of khimp
 Gurdo गुडदो - gold ornament worn by men in ears
 Guwad गुवाड - village common place, chaupal
 Guwadi गुवाडी - residential campus
 Guwal गुवाळ - a cowkeeper, a cowherd
 Gwar ग्वार - crop of semi arid areas used for cattle feed and source of gum
 Gyaban ग्याबन- pregnant (cow)

H

- Haa हा - were
Haal हाल - front long pole of plough
Haali हाळी - labour engaged for cultivating field by big farmers in lieu of advances given to him
Hadumanji हडुमानजी - Lord Hanuman
Hal हल - plough
Hal हळ - a instrument use for farm work
Halki हळकी - light, less productive
Halsotio हलसोटियो - prayer at the start of ploughing a field
Hamal हामळ - consent
Hamel हेल्म - Traditional ornament, which is a string with gold coins
Hangar हंगार - feeling of motion
Hansali हंसली - Traditional ornament wore over neck
Haq-haquk हक-हकूक - rights
Hardaro हरदड़ो - a game played with a ball and a stick put on two bricks; game is Rajasthani form of cricket.
Hasal हासल - cess, tax
Hathai हथई - village common place, chaupal
Heli हेली - haveli, residencial building
Helo हेलो - call with force
Hindo हिण्डो - a swing
Hingun हिंगूण - xerophitic plant with hard fruits botanical name Balanites roxburghii
Hivado हिवडो - heart
Ho हो - was
Hon हों - yes
Hun हूण - death
- ## I
- Ijan इजां - here
Ijaro इजारो - contract
Iro इरो - his
Indi इण्डी - ring ball type of device put on head by paniharin to carry water pitcher
Induni (Indani) इण्डुणी (इण्डाणी) - see Indi
Irno इरणो - an arid shrub with strong odour, shrub is liked by camel as a feed
Isar इसर - god
Isya इस्या - like this

J

- Jaan जान - baraat
Jaan boojh'r जाणबूझ'र - knowingly
Jaanio जानीयो - barati
Jaan-pichhan जाण-पिछाण - acquaintance
Jakhdi जाखड़ी - Song sung to welcome [Batawoo,]husbands of their daughters
Jalan जाल - a pilu fruit tree, net
Jalam जलम - born
Jaldipeesai जळडीपीसै - to grind teeth with rage
Jalmo जळमो - to give birth
Jalwa जळवा - Function done after about a month of the delivery. In that function new mother do pooja at the Well and gifts are exchanged between relatives and new mother and after that function the mother start doing routine household
Jamanon जमानों - crop production
Janghiyo जांघियो - under-wear
Jant जांट - old khejri tree
Japo जापो - delivery
Jayedi जायेड़ी - born
Jeeji जीजी - Sister
Jeejo जीजो - Husband of sister
Jeemanar जीमणार - feast
Jeemo जीमो - take food
Jeen जैन - saddle
Jeethani जीठाणी(जेठाणी) - Wife of husband's elder brother
Jeli जेली - Y-shaped agricultural implement used by farmer to carry brushwood etc.
Jer जेर - the membrane in which foetus develops
Jeth जेठ - husband's elder brother
Jewadi जेवड़ी - a rope
Jhalo झालो - wave hands to call somebody
Jhawli झावली - earthen pot used to keep flour
Jheeni झीणी - thin, transparent
Jhernon झेरणों - an implement to churn milk
Jhunwari झूंआरी - paying respect to a relative by putting tilak on forehead and offering gift

H

- Haa हा - were
Haal हाल - front long pole of plough
Haali हाळी - labour engaged for cultivating field by big farmers in lieu of advances given to him
Hadumanji हडुमानजी - Lord Hanuman
Hal हल - plough
Hal हळ - a instrument use for farm work
Halki हळकी - light, less productive
Halsotio हलसोटियो - prayer at the start of ploughing a field
Hamal हामळ - consent
Hamel हेल्म - Traditional ornament, which is a string with gold coins
Hangar हंगार - feeling of motion
Hansali हंसली - Traditional ornament wore over neck
Haq-haquk हक-हकूक - rights
Hardaro हरदड़ो - a game played with a ball and a stick put on two bricks; game is Rajasthani form of cricket.
Hasal हासल - cess, tax
Hathai हथई - village common place, chaupal
Heli हेली - haveli, residencial building
Helo हेलो - call with force
Hindo हिण्डो - a swing
Hingun हिंगूण - xerophitic plant with hard fruits botanical name Balanites roxburghii
Hivado हिवडो - heart
Ho हो - was
Hon हों - yes
Hun हूण - death
- ## I
- Ijan इजां - here
Ijaro इजारो - contract
Iro इरो - his
Indi इण्डी - ring ball type of device put on head by paniharin to carry water pitcher
Induni (Indani) इण्डुणी (इण्डाणी) - see Indi
Irno इरणो - an arid shrub with strong odour, shrub is liked by camel as a feed
Isar इसर - god
Isya इस्या - like this

J

- Jaan जान - baraat
Jaan boojh'r जाणबूझ'र - knowingly
Jaanio जानीयो - barati
Jaan-pichhan जाण-पिछाण - acquaintance
Jakhdi जाखड़ी - Song sung to welcome [Batawoo,]husbands of their daughters
Jalan जाल - a pilu fruit tree, net
Jalam जलम - born
Jaldipeesai जळडीपीसै - to grind teeth with rage
Jalmo जळमो - to give birth
Jalwa जळवा - Function done after about a month of the delivery. In that function new mother do pooja at the Well and gifts are exchanged between relatives and new mother and after that function the mother start doing routine household
Jamanon जमानों - crop production
Janghiyo जांघियो - under-wear
Jant जांट - old khejri tree
Japo जापो - delivery
Jayedi जायेडी - born
Jeeji जीजी - Sister
Jeejo जीजो - Husband of sister
Jeemanar जीमणार - feast
Jeemo जीमो - take food
Jeen जैन - saddle
Jeethani जीठाणी(जेठाणी) - Wife of husband's elder brother
Jeli जेली - Y-shaped agricultural implement used by farmer to carry brushwood etc.
Jer जेर - the membrane in which foetus develops
Jeth जेठ - husband's elder brother
Jewadi जेवडी - a rope
Jhalo झालो - wave hands to call somebody
Jhawli झावली - earthen pot used to keep flour
Jheeni झीणी - thin, transparent
Jhernon झेरणों - an implement to churn milk
Jhunwari झूंआरी - paying respect to a relative by putting tilak on forehead and offering gift

Jinawar जिनावर - animal

Jo'do जो'डो - pucca pond, pair

Joont जूंट - pair of bullocks

Joonth जूँठ - food material left in dish

Jugali जुगाळी - cud

K

Kaal काळ - famine

Kaamkaraniya कामकरणिया - workers

Kacho काचो - unripe

Kacholo कचोलो - see-batko

Kachro काचरो - small variety of cucumber used for vegetable and achar

Kadeyee कदेयी - sometime

Kadeyeni कदेयी नीं - not at all, never

Kadhawani कढावणी - the earthen pot used to boil milk

Kadiyo कडियो - a ring in hand, an ornament worn on legs

Kado का'डो - take out, an ayurvedic medicine made by boiling roots e.g. das mool kado

Kae के - what

Kagad कागद - paper (d & j are interchangeable)

Kagalo कागलो - crow

kai कै - howmany

Kair कैर - xerophitic plant of which fruits are used for pickles and vegetables botanical name Caparis decidua

Kain काई - what

Kajal काजळ - lampblack for use on eyes

Kakadi काकडी - cucumber

Kaki काकी - aunty

Kako काको - father or uncle

Ka'l का'ल - tomorrow

Kalewo कलेवो - breakfast

Kali कळी - plates in a cloth, a bud, whitewash, lateral coppice in Bajra plant

Kaljo काळजो - heart

Kaluns काळूस - black colour on cooking utensils due to smoke

Kamal कामळ - woolen blanket made of sheep wool size normally 24', 36', 48'

Kamalo कामळो - woolen blanket made of

sheep wool size normally 8'

Kaman कामण - Magic

Kamangari कामणगारी - beautiful and sexy woman

Kamangaro कामणगारो - handsome and sexy man

Kamedi कमेडी - dove bird

Kameen कमीण - workers, an abuse

Kamp कांप - a thin flexible mix of clay and water

Kanai कानै - near

Kanasun कनासूं - from somebody

Kanch कांच - a disorder of rectum (prolapusani)

Kanchali कांचळी - see aangli, the slough of a snake

Kangasio कांगसियो - comb

Kankad dorada कांकड डोरडा - the sacred threads put on the hands of bride and bridegroom in marriage are removed and put at the boundary of village when bridegroom returns with bride to his village

Kankar कांकड - village boundary

Kanthlo कांठलो - an ornament worn around neck

Kanwar Kalevo कंवर कलेवो - ceremony of offering breakfast to bridegroom by bride's side during marriage in which bridegroom along with close friends and associates relish the royal breakfast

Kardyo करद्यो - please do

Karnon padsi करणों पडसी - will have to do

Kasio कसियो - an agricultural implement used for weeding keeping him standing

Kathai कठै - where

Katro कातरो - a larva that damages bajra crop

Keeko कीको - whose

Kha'ba खा'बा - to eat

Khaklo खाकलो - weed resembling bajra crop which is a good fodder for cows

Khalo खळो - a granary

Khalo kado खळो काडो - to separate grains from husk etc in a granary

Khatli खतली - see-gudari

Khato खा'तो - with fast speed

Khato खाटो - curry

Khato-peeto खातो पीतो - a well off family
 Khedo खेडो - a farm in the vicinity of village
 Kheechadi खीचडी - recipe made of daal and rice, kheechad gotra
 Kheench खींच - to pull
 Kheslo खेसलो - a cotton blanket
 Kheyee खेई - twigs of jhadberi or other agricultural plants cut and heaped so that it can be picked up by a 'jeli'
 khimp खीप - a plant found in Rajasthan
 Khodi खोडी - a type of panjiri
 Khoj खोज - pugmark
 Khojo खोजो - eunuch
 Khoslyo खोसल्यो - take away forcefully
 Khotlo खोतलो - alternate name of jats
 Khudda-dari खुड्डादरी - game
 Khudko खुडको - explosion, sound of gun or crackers
 Khuntitaan'ar sono खुंटीताण'र सोणो - deep sleep
 Khur-khoj खुर'खोज - trace
 Kijan कीजां - where
 Kiwad कीवाड़ - wooden gate
 Kolho कोळो - a local variety of cucurbit
 Koni कोनी - not
 Koompli कूपली - thatching by munj in conical shape
 Koont कूट - corner
 Koont कूत - to assess especially the production of food grains in advance
 Koontaro कूंतारो - the man who assess the production of food grains in advance
 Kooryo कूरियो - local bhatti to boil milk
 Korda कोरडो - rope or leather belt used to beat
 Kothar कोठार - store of food
 Kothalio कोठलियो - a traditional structure made of cow dung and clay for storage of food grains. It is thatched with munj to protect from rains. Ash and neem leaves are put inside to preserve the grains
 Kuhad कुहाड़ - an axe of heavy weight
 Kuhadio कुहाडियो - an axe of light weight
 Kun कुण - who
 Kund कुंड - a deep pucca tank
 Kunkeda कुणकेडा - silly man (when called

with anger)
 Kunto कुंटो - a chain to lock a gate
 Kuo कुओ - well
 Kurdantali कुरदांतली - a migratory bird of long peak
 Kurjan कुरजां - migratory bird from siberia
 Kurti कुर्ती - a type of ladies garment
 Kush कुश - lower wood part of plough, leaves of kans grass put in heap of grains as a sybbol of respect in the granary

L

Laarai लारै - after somebody
 Lagyoda लागयोडा - engaged
 Lahario लहरियो - odhana of a woman with wavy prints
 Lami लामी - long (woman)
 Lamo लामो - long (man)
 Lampli लाम्पली - variety of watermelon in shape of a long kakadi
 Lao लाव - a strong rope used to pull water from well
 Lapsi लापसी - recipe made of flour
 Lawan लावण - traditional kasheeda
 Lawani लावणी - harvesting
 Leero लीरो - a long piece of land
 Lethari लेदरी - decay of a brick and lime mortar wall due to weathering
 Ley'r लेय'र - after taking
 Lhadagi लहादगी - recovered a lost thing
 Log लोग - people
 Loon लूण - salt
 Loonkadi लूंकडी - a fox
 Lunkyar लूणक्यार - game
 Loontho लूंठो - heavy or grand
 Lugado लुगडो - a mantle of a woman, chunni to cover entire body of a woman
 Lukbhinchani लुकभींचणी - the game of hide and seek
 Lugai लुगाई - wife, woman
 Lunkar लुंकार - a red woolen blanket used by women
 Lyojibhai ल्योजीभाय - delicious food

M

Maachhar माछर - mosquito
Malzadi मालजादी - silly woman (calling with anger)
Maand मांड - to write
Maankhi मांखी - fly
Maansun मांसू - take out from some thing
Maantho मांठो - lazy
Majoor मजूर - labour
Mal-dari मालदड़ी - a game
Malio मालियो - see chaubaro
Mandaso मंडासो - a big cloth like blanket is put around head for protection
Mandnon मांडणों - drawings on wall
Mando मांडो - a pole made of khejadi tree put on the day of marriage of a girl
Mangori मंगोड़ी - small lumps of pounded pulse dried in the sun, badi in hindi
Manni मन्नी - Mehendi
Manvar मनवार - request
Manyla मांयला - insider
Mamo मामो - Maternal uncle
Mariliya मरीलिया - an abuse
Marzana मरजाणा - an abuse
Matani मटाणी - the membrane in which foetus develops and comes out first
Mathai माथै - for this
Matiro मतीरो - water melon
Mauchari मोचड़ी - traditional Rajasthani ladies shoes
Maur मौर - to take seeds out of bajra seeta, peacock
Mauran मौरण - bajra seeds taken out from green seetas
Maurio मौरियो - peacock
Mauro मौरो - land of highest sand dune
Mausar मौसर - the ceremony after death of a person in which all relatives and villagers are invited on food
Mayero मायरो - see bhaat
Mawali मावली - goddess
Meendi मीण्डी - Plates

Meenjar मीजर - flowers of khejri tree
Meengni मींगणी - excrata of sheep or goat
Meengna मींगणा - excrata of camel
Mel मेळ - get together ceremony on previous day of marriage by the side of bridegroom
Melo मेळो - fair
Melo मेलो - put
Meh मे - rains
Mekhalio मेखळियो - shirt of a child
Mero मेरो - mine
Mharo म्हारो - mine
Mhanro म्हारो - ours
Mhanko म्हांको - ours
Mhanai म्हांनै - to us
Mhe म्हे - we
Milay'r मिलाय'र - after mixing or adding
Modo मोडो - saint
Modo मोडो - late
Mokla मोकळा - sufficient, very much
Moth मोठ - a desert cereal rich in protiens, dal moth
Mothia मोथियो - a grass with delicious root bulb
Motyar मोट्यार - husband, youngman
Muddho मुद्धो - chair made of munj straws
Mugdano मुगदणो - green and dried twigs of khejri tree brought from farm on a cart on the day of baan which are worshiped by mother or sister of a boy or girl prior to marriage
Muklao मुकलावो - gona, second part of marriage after which the bride starts living with his husband
Mulikai मुळकै - smiling
Mumal - मुमल - Lover (Woman), wife
Mundo मुंडो - face
Mungho मूंघो - costly
Munj मुंज - plant used for thatching, for making ropes, baskets etc botanical name Saccharum munja
Munjee मुंजी - a miser
Murki मुरकी - ornament worn by males in the ear in the shape of a ring

N

- Nad नाड़ - neck
Naro नारो - bull
Nankh नांख - drop down
Napho नफो - profit
Nauro नौरु - campus not used for residential purpose but used to keep animals etc
Nedo नेडो - near
Neemdai नीमडै - to vanish
Neemdo नीमडो - neem tree
Neen नीन - sleep
Neto नेतो - leader
Netro नेतरो - leather belt used to churn curd
Nezo नेज़ो - The flag of Gogaji deity
Ninan नीनाण - weeding
Nuto न्यूतो - invitation
Nuvon नुवों - new
Nyaro न्यारो - separate, different

O

- Ochhe ओछै - fast
Odhanon ओढ़णों - a mantle of a woman, chunni to cover entire body of a woman
Ojarjo ओजरियो - kind of an odhana or chunari
Ojun ओजू - again
Olo ओलो - to hide face
Olun ओळ्यो - to miss, a Rajasthani song
Ola ओळा - hailstorm
Oto ओटो - behind something

P

- Paachha पाछा - back
Paali पाळी - shift
Paan पान - tobacco mixture used for smoking, leaf
Paan पाण - dependent
Pabuji पाबुजी - Rajasthani folk-deity
Padi पाडी - young female buffalow
Pado पाडो - young male buffalow
Paglyo पगल्यो - step
Paili पैली - earlier
Pai'lo पैलो - first
Pajeb पाजेब - Anklets
Paal पाळ - parapet
Paal पाल - a mat made of twigs of shrubs used in making a jhompada

- Pagro पागड़ो - a support to legs for a camel or horse rider
Pajao पजाओ - insert some object into a hole
Pale पाळै - Pregnant young cow / bedfellow
Palo पालो -leaves of ber shrub dried and used as fodder
Palo पाळो - severe cold, frost
Pangarai पांगरै - to grow
Paniharin पणिहारिन - a woman carrying water from well
Panti पांती - division, term
Panw पांव - scabies
Panwdo पांवडो - between two steps when one moves
Panwano पांवणों - guest
Parban परबन - management
Parindo परिण्डो - a place used to keep drinking water
Patola पटोळा - recipe made of boiled moth or mung or gwar
Peelapotra पीळापोतड़ा - on the birth of a male child nai is sent to maternal side with a cloth coloured with turmeric to give a message of birth
Peelo पीळो - plural peela, Traditional Chunni, which has a Orange coloured circle in the middle supposed to be worn for the first time when a lady gives birth to son and is sent by her parents. Peela is supposed to signify that lady is mother of son
Peesa पीसा - money
Peethi पीठी - paste made of grounded barley, turmeric and ghee used as a fairness cream
Pesarjo पेशगारो - the function on next day of return of barat by the side of bridegroom from marriage
Peti पेटी - box
Peedho पीढो - seat
Pomcho पोमचो -traditional Chunni, which has yellow coloured circle in the middle
Phito फीटो - Turban
Phito फीटो -stubtorn, shameless
Phog फोग - a shrub found in desert area of Rajasthan. Its roots are used to prepare charcoal to melt iron. Its flowers, known as Phogalo, are used to prepare rayata. Phogat gotra is derived from it. Batanical name Calligonam poligonoides
Phogalo फोगलो - The flowers of Phog, used to prepare rayata

Phofo फूफो - Husband of Father's sister
 Pichhan पिछाण - to recognize, identity
 Poli पोली - front airy open verandah
 Pugo पूगो - reach
 Pulo पूलो - bundle of bajra or jwar
 Punjali पूजली - heap of bajra seeta
 Purani पुराणी - stick to run the bull
 Purkha पुरखा - ancestors
 Phera फेरा - Ceremony performed during marriage when the couple take Vachan in front of Agni devata
 Poonchhgi पूंछगी - reached
 Potho पोठो - fresh cow dung
 Potro पोतड़ो - napkin of a newly born child
 Pyario प्यारियो - kiss

Q

Qyamkhani क्यामखानी - a caste of muslims

R

Rabadi राबड़ी - a recipe made of churned curd and flour.
 Rado राड़ो - barn for animals
 Rakdi रकड़ी - Ornament worn on forehead
 Ramari रामारी - silly women (when called with love)
 Ramaryo रामार्यो - silly man (when called with love)
 Rangbari रंगबरी - the ceremony of showing ornaments and clothes of a bride
 Rangro रंगड़ो - alternate name of rajputs
 Rasdi रसड़ी - a game
 Ratijko रतिजको - on the first night of marriage all family members sing songs, dance and worship deities without sleeping
 Raand रांड - widow, an abuse
 Raandh रांध - prepare a recipe like rabadi by continuous stirring
 Reeto रीतो - empty
 Rewad रेवड़ - herd of sheep
 Ripya रीप्या - rupees
 Rohi रोही - agricultural land off a village
 Rohido रोहीड़ो - a flowering tree found in fields, botanical name Tecomella undulata
 Rojina रोजीना - daily

Roonkh रूख - tree
 Roonkhdi रूखड़ी - a weed of bajra crop
 Rulta रुलता - wander without purpose
 Rulyoda रुल्योड़ा - ruined, of no use
 Rungas रूंगस - dishonesty with bias in somebody favour
 Runsadio रूसाड़ियो - wave of spread of a viral infection
 Roosgyo रूसग्यो - displeased

S

Saag साग - vegetable
 Saanchi सांची - true
 Saand सांड - bull
 Saagi सागी - actual, same
 Saa'ro सा'रो - help
 Saatai साटै - in exchange
 Saawchet सावचेत - alert
 Sabad सबद - Alphabets
 Safo साफो - turban
 Sagala सगळा - all
 Sagi सगी - mother-in-law of one's son or daughter
 Sago सगो - father-in-law of one's son or daughter
 Sai'n सै - all
 Sai'li सै'ली - heavy (feminine)
 Sai'lo सै'लो - heavy (masculine)
 Sain सैन - explain with expressions without speaking
 Sain-paith सैन-पैठ - knowing each other
 Samhaal समहाळ - take care, sweets gifted to invitees in function
 Samthuni समटुणी - function to honour the baraatis and guests in marriage
 Sanani सनाणी - mark of identification
 Sangari सांगरी - pod of khejri tree
 Sania सणिया - a good fodder botanical name
 Crotolarai burhia
 Sanwali सांवळी - light black in colour
 Sapanon सपनों - dream
 Saran सारण - down-sloping pitch of a well over which bulls or camels drag water from

a well by rope called Lao, Saran is a Jat gotra

Sarpech सरपेच - ornament worn in front on the turban. It was often extended into a golden band set with emeralds, rubies, diamonds.

Sathia सथिया - when a male child is born in Rajasthan, signs of swastik are made on door by using cowdung.

Sasaro सासरो - In-law's house

Sato साटो - a herb which is a good fodder for cattle botanical name Boerhavia diffusa, Marrying one's daughter and sons in exchange of each other.

Sedo सेडो - nasal phlegm

Shafo साफो - Turban

Seelo सीलो - with moisture

Seero सीरो - recipe made of flour, sugar and ghee, halwa

Seeto सीटो - bajra ear head or panicle

Sehlo सेहलो - barati's reception ceremony

Sej सेज - bed properly decorated

Sialo सियाळो - winter season

Sinalio सिंयाळियो - fox

Sighriya सीधरिया - a all members of a family inviting in some function

Singar सिणगार - the act of dressing, makeup and putting ornaments by a woman e.g. 16 singar

Siraman सिरामण - breakfast

Sinjharo सिंझारो - function in which gifts are offered to a young lady prior to marriage and after marriage also on the occasion of previous day of teej and gangaur

Sinw सीव - boundary

Sir सिर - head

Siri सीरी - partner

Sogri सोगरी - fruits of radish

So'gi सो'गी - gone to sleep

Sood सूड - unwanted shrubs cut before cultivation

Soonpo सूपो - hand over

Soon सू - from

So'ri सो'री - easy (feminine use)

So'ro सो'रो - easy (masculine use)

Soriyo सोड़ियो - a mattress made of cotton

Suavadti सुंआवडती - Pregnant woman

Subhito सुभितो - convenient

Suraliya सुरलिया - ornament worn in ears

Sunba सुणबा - for listening

Sundi सुंडी - nabhi in hindi

Sungho सुंघो - cheap

Sunto सूंटो - strong rainy winds

Syalia स्याळिया - throught infection

Syat स्यात - probably, moment

Syami स्यामी - swami in hindi, a caste engaged in pooja in temples

T

Tabar टाबर - child

Taan तान - rhythm

Tagari तागड़ी - ornament worn by ladies on the waste

Tain ताई - till, for

Tangarpatiya तंगड़पटियो - belts used to fix saddle on camel

Tant तंत - strength

Tanti तांती - a sacred thread put on body in the name of a deity

Tantio टांटियो - burr

Taparo टापरो - house

Tarkai तड़कै - tomorrow

Tarko तड़को - early morning

Tat टाट - she goat

Tato तातो - hot

Tawado तावडो - sun light

Tawlo तावळो - fast

Teej तीज - festival of swings more centered towards girls. Held during the monsoons, July-August Teej is also dedicated to Lord Shiva and Parvati and at this time married women pray for a happy and long married life. Though celebrations are held all over the state, it is particularly colourful in Jaipur where a procession winds its way for two days through the Old City. It is the festival of swings which are decorated with flowers and hung from trees. Young girls and women dressed in green clothes sing songs in celebration of the advent of the monsoon. The Teej idol is covered with a canopy whereas the

Gangaur idol is open. Teej is supposed to herald the season of festivals, a well known saying in rajasthan "TEEJ TUYHARAN LE BHAJI, GANGOUR TOYHARAN LE DOOBEE" also in other areas the saying is Teej tyoharan bawri, le dubee gangaur

Teeko टीको - a ceremony of giving gifts to a bridegroom prior to his marriage

Teelo टीलो - sand dune

Teengar टींगर - Boy

Teengri टींगरी - girl

Tejo तेजो - song about Tejaji, sung by farmers while cultivating fields, name of a person

Tewato टेवटो - traditional ornament worn on neck, made of a Gold, worn in group of string of beads

Tha ठा - information, to know

Thae थे - you

Thail ठैल - gossip

Thakur ठाकुर - normally a Rajput, Jats of Bharatpur also write thakur

Thakurji ठाकुरजी - Lord Krishna

Thanai थानै - to you with respect

Thap थाप - cuff

Thapo थापो - imprint of hand of bride or bridegroom in mehendi or haldi

Tharo थारो - yours

Tharpyodo थरप्योड़ा - imposed

Thedo ठेडो - place to stay

Thikanon ठिकाणों - place of staying, a relation

Thodo थोड़ो - little

Thodai थोड़ाई - few

Thukres ठुकरेस - to act and behave like thakur

Thyawas थ्यावस - patience

Tibari तिबारी - a kachcha structure with made of bricks and plastered with gobar or lime

Tibaaro तिबारो - a pucca open verandah with three gates

Tibaro टिवड़ो - sand dune

Tibo टीबो - sand dune

Tingar टींगर - male child

Tingari टींगरी - female child

Titudi टीटुड़ी - a bird with long peak, tithari

Tinwala तिवाळा - giddiness

Toontiyoo टूंटियो - entertainment programe performed by ladies in the house of bride groom when the males are out on baarat , also a man with one hand

Topalo टोपलो - dress of a child

Toradiyo टोरडियो - young camel

Toran तोरण - a symbol of victory put on the door of dulhan on arrival of baraat, Been comes and touches it with his sward or a neem or Zhaadi [berry] stick

Tumo तूमो - bitter gourd

Tu, Tun तू - you (singular)

Tussi तूस्सी - necklace

U

Ubo ऊबो - to stand

Udhai उधई - white ants

Udham उधम - uproar, disturbance

Udiko उडिको - to wait

Ughado उघाड़ो - uncover

Ukal उकाळ - to boil

Ulto उल्टो - not straight

Ujalo उजाळो - light, brightness

Ujano उजणो - to do udyapan e.g. Gaur ujano

Umaro ऊमरो - the line on earth made by a plough for sowing seeds

Uno ऊनो - reverse, upside down

Unro ऊनरो - mouse

Unwaro उंवरो - encircle money over some body's head and gift him

Unyalo ऊन्याळो - summer season

Upad उपाड़ - to uproot

Upalo उपाळो - on foot

Uprant उपरांत - a quilt made of used clothes in place of cotton

Urai उरै - near

Uranio उरणियो - young sheep

Utaradh उतराध - north direction

Uut ऊत - bad son

Utaval ऊतावळ - Urgency

Utavalo ऊतरवळो - fast

नोट: ऊपर दिये गये राजस्थानी शब्द और उनके अंग्रेजी में अर्थ साधार: <http://www.hamrabikaner.org/> से लिया गया है।

इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो ऐसा हमने प्रयास किया है, फिर भी कोई त्रुटि रह गई हो तो हम क्षमाप्रार्थी हैं— संपादक



IISD

SREI
Foundation


A Gateway to Careers

FOR GRADUATES
THE ULTIMATE PROFESSIONAL EDGE

MBA

BBA


BCA



**CONVENIENT WEEKEND
CLASSES AVAILABLE**

Specialisations offered

- Marketing
- Finance
- Human Resource Management
- Information Technology



**EXCELLENT OPPORTUNITY FOR
MASTER DEGREE IN
MANAGEMENT WHILE WORKING
IN OWN CAREER.**

Other Major Courses Conducted By IISD

- ♦ Language Courses : Functional English, Spoken English, Spanish, Italian, Russian, German, Chinese, Japanese, Arabic, Burmese, Persian, French, Korean, Sanskrit and Hindi.
- ♦ Indian Administrative Service (IAS) and Allied Services Examination (Both Preliminary and Main).
- ♦ WBCS (Executive & Judicial) and Allied Services Examination (Prelims and Main).
- ♦ Company Secretary Courses (Foundation, Intermediate and Final).
- ♦ PG Medical Entrance including MD / MS, M.R.C.P., D.N.B., etc.

FACILITIES

- ♦ Most convenient and well-connected location in Salt Lake, next to the Easter Zonal Cultural Centre.
- ♦ AC Class Rooms.
- ♦ Eminent highly qualified and experienced faculty.
- ♦ Tutorials, personalized coaching, seminars and workshops.

Degree conferred by Punjab Technical University approved by UGC, Ministry of HRD, GoI, and DEC.

INSTITUTE FOR INSPIRATION & SELF DEVELOPMENT

IB-200/1, Sector-III, Salt Lake, Kolkata 700 106

Ph.: 2335 2378/2861, Fax: 2335 2379

E-Mail: info@iisdedu.in Website : www.iisdedu.in

युगपथ चरण :

महेश नवमी

गोलाघा (असम) माहेश्वरी जाति का वंशोत्पति दिवस महेश नवमी उत्सव दो दिवसीय कार्यक्रम के साथ हर्षोल्लास के साथ स्थानीय माहेश्वरी भवन में माहेश्वरी सभा, महिला संगठन एवं युवा संगठन के संयुक्त तत्त्वावधान में मनाया गया। प्रथम दिन ३१ मई रविवार को महिला संगठन के द्वारा दोपहर तीन बजे भजन कार्यक्रम एवं सामूहिक सुन्दर काण्ड का पाठ किया गया। इसके पश्चात महिला संगठन के द्वारा स्थानीय अस्पताल में रक्तदान किया गया।

रात्रि ३१ मई को सभा के तत्त्वावधान में स्थानीय कलाकारों द्वारा भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया जिसमें सम्पूर्ण मारवाड़ी समाज की भागीदारी रही। सोमवार १ जून को प्रातः १० बजे स्थानीय भवन में सामूहिक रूप से ५ जोड़े सपत्निक अग्रवाल महेश की पूजा एवं अभिषेक किया गया जिसमें श्री किशोरीलाल जी बिन्नानी, श्री माधोलाल जी बदड़, श्री मगनलाल जी, श्री गोपीकिशन जी बिन्नानी एवं बद्रीनारायण जी बाहेती ने सामूहिक रूप से पूजा अभिषेक किया।

सायंकाल ६ बजे युवा संगठन के द्वारा मेधावी छात्र-छात्राओं को जो मैट्रिक-बारहवीं तथा स्नातक श्रेणी में प्रथम तथा उससे अधिक नम्बर पाने वाले विद्यार्थियों का अभिनन्दन एवं पारितोषिक दिया गया। इस वर्ष समाज के छात्र-छात्राओं का अच्छा प्रदर्शन रहा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में युवा संगठन के सदस्य सुनिल मल, अजय बजाज, विजयन्त बजाज, हेमन्त काबरा, एवं उमाशंकर मालानी का विशेष योगदान रहा।♦

मारवाड़ी सम्मेलन जोरहाट शाखा



गाँधीवादी विचारक आस्ट्रेलियाई वृद्ध नागरिक गार्विन ब्राउन का भव्य स्वागत

सम्मेलन के द्वारा दिनांक १८ मार्च २००९ को श्री मारवाड़ी ठाकुरबाड़ी प्रांगण में सत्य व अहिंसा के पैगाम के साथ प्रज्ञालय के तत्त्वावधान में गाँधीवादी विचारक आस्ट्रेलियाई वृद्ध नागरिक गार्विन ब्राउन का भव्य स्वागत किया गया। सर्वत्र व्याप्त हिंसा व आतंक के माहौल को खत्म करने की मंशा से श्री ब्राउन ने कहा कि गाँधीजी के आदर्शों को पूरी दुनिया में प्रचार-प्रसार कर लोगों को जागरूक बनाने की जरूरत है।

श्री ब्राउन ने कहा कि गाँधीजी ने हमेशा ही गरीबों व उपेक्षित वर्ग की सेवा की। इसलिए हमें भी उनके कार्यों से सीख लेते हुए समाज में दबे-कुचले लोगों के विकास के लिए प्रयास करना चाहिए। ८० वर्षीय विदेशी नागरिक श्री ब्राउन उम्र के अंतिम पड़ाव में भी उनका एक मात्र सपना पूरी दुनिया में अहिंसा परमो धर्म: का प्रचार करना है, जिससे विश्व शांति का सपना साकार हो सके। पूर्वोत्तर मारवाड़ी सम्मेलन के भूतपूर्व उपाध्यक्ष बाबूलाल गगड़ की अध्यक्षता में सभा का आयोजन किया गया। स्वागत समारोह कार्यक्रम का संचालन मारवाड़ी सम्मेलन की जोरहाट शाखा के सचिव राजकुमार सेठी ने किया, किशन बजाज सह सचिव जोरहाट शाखा ने धन्यवाद ज्ञापन पेश किया। इस दौरान मारवाड़ी सम्मेलन जोरहाट शाखा की तरफ से २१००/- रुपये, द्वारका प्रसाद अग्रवाल ने ११००/- रुपये तथा गुलाबचंद पाटनी ने ५००/- रुपये की सहायता राशि प्रज्ञालय शिक्षण संस्थान के संचालक समीरन बरदलै को भेंट की।♦

मध्य प्रदेश मारवाड़ी सम्मेलन:

मुफ्त शरबत वितरण चलता रहा दिन भर..



मध्य प्रदेश मारवाड़ी सम्मेलन, जबलपुर द्वारा गत दिवस बस स्टैंड के पास मुफ्त शरबत का वितरण घड़िया एकादशी के पावन मारवाड़ी पर्व पर किया गया। मुफ्त शरबत वितरण का कार्य दिन भर चलता रहा। राहगीरों व आसपास के दुकानदारों सभी ने इस कार्य की बेहद सराहना की। इस अवसर पर अध्यक्ष श्री अरूणकान्त अग्रवाल, महामंत्री श्री रमेश गर्ग, श्री विनय अग्रवाल, श्री कमलेश नाहटा, श्री संतोष ओसवाल, पी.के. अग्रवाल, घनश्याम अग्रवाल, सी.के. जैन, किशोर अग्रवाल, बबलू फ्रांसिस, रजत अग्रवाल (मामाश्री) एवं अनिल शर्मा आदि उपस्थित थे।♦

निवेदन

सेवा में,
महामंत्री महोदय,
अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन
152बी, महात्मा गाँधी रोड,
कोलकाता-700 007

महोदय,

- कृपया मेरे पते में निम्न सुधार करने की कृपा करें।
- कृपया मेरी सदस्यता शुल्क बकाया के संदर्भ में मुझे जानकारी दें ताकि मैं उसे जमा करा सकूँ।
- मैं अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन का विशिष्ट/आजीवन/संरक्षक सदस्य बनना चाहता हूँ। कृपया निम्न पते पर मुझे एक सदस्यता फार्म डाक द्वारा भेजने की कृपा करें।

- विशिष्ट सदस्यता 500/-
- आजीवन सदस्यता 5000/-
- संरक्षक सदस्यता 51000/-

मैं अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा प्रकाशित 'समाज विकास' पत्रिका का सदस्य बनना चाहता हूँ। सदस्यता शुल्क 100/- चेक/मनि ऑर्डर/नगद द्वारा संलग्न।

मेरा वर्तमान पता निम्न है

नाम :

पता :

शहर :

पिन कोड :

फोन नं. :

मोबाईल :

ई-मेल :

हस्ताक्षर

विशेष सूचना

इन्स्टीट्यूट फॉर इन्सपिरेशन एण्ड सेल्फ डेवलपमेंट (आई.आई.एस.डी.) कोलकाता ने अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन की सिफारिश पर मेधावी एवं जरूरतमंद छात्र-छात्राओं को बी.बी.ए. तथा एम.बी.ए. के कोर्स के लिये शुल्क में विशेष सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव दिया है। ज्ञात रहे कि हरिप्रसाद कानोडिया जो सम्मेलन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, इस महत्वपूर्ण शिक्षा संस्था के चेयरमैन हैं। उक्त दोनों कोर्स के लिये पंजाब टेकनीकल युनिवर्सिटी द्वारा डिग्री प्रदान की जाती है जो केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्वीकृत है।

मारवाड़ी सम्मेलन उक्त प्रस्तावित शुल्क सुविधा का स्वागत करते हुए विभिन्न प्रान्तीय सम्मेलनों से अनुरोध करता है कि वे इस सुविधा का लाभ उठाए एवं इस सम्बन्ध में उनसे सीधे सम्पर्क स्थापित करें।

श्री हरिप्रसाद कानोडिया, चेयरमैन

आई.आई.एस.डी., साल्ट लेक सेक्टर ३,
आई.बी. २००/१, कोलकाता-७०० ०१६
फोन : ०३३-२३३५२३७८/२८६१, फैक्स : २३३५२३७९

माहेश्वरी सभा श्रीरामपुर अंचल

रिसड़ा का

सत्र २००९-२०११ का चुनाव सम्पन्न



देवकिशन करनानी



हरीश काबरा

श्री देवकिशन करनानी, अखिल भारतीय माहेश्वरी सभा की महासभा, रिसड़ा के अध्यक्ष पद पर चुने गए। ज्ञातव्य हो कि श्री देवकिशन करनानी अ.भा.माहेश्वरी महासभा के कार्यकारी मण्डल के सदस्य एवं प्रोफेशनल सेल (पूर्वांचल) के सचिव तथा मारवाड़ी युवा मंच के संरक्षक एवं अन्यान्य सामाजिक एवं प्रशासनिक संस्थानों से जुड़े हुए हैं। - बधाई

सभापति: श्री देवकिशन करनानी

उप सभापति : श्री विनोद राठी

मंत्री श्री हरीश काबरा

सहमंत्री: श्री राजेश मूँछड़ा


अर्थमंत्री: श्री कुलदीप गड्डानी



Caring for Land and People...

MANGILALL RUNGTA

Mine Owners, Ferro Alloy Producer & Mineral Processors



- **IRON ORE** BF & SPONGE GRADE, BLUE DUST, CRUSHED FINES
- **MANGANESE ORE** BF & FERRO MANGANESE GRADE, DIOXIDE, FINES
- **FERRO ALLOY** SILICO MANGANESE & FERRO MANGANESE
- **LIMESTONE POWDER**

CORPORATE OFFICE

RUNGTA HOUSE, CHAIBASA 833 201, JHARKHAND, INDIA

Phone: 06582-256861/ 256761/ 256661; Fax: 91- 6582 256442

Email: rungtas@satyam.net.in, Web Site: www.rungtamines.com; GRAM: "RUNGTA"

CENTRAL MINES OFFICE

RUNGTA OFFICE

MAIN ROAD, BARBIL 758035, DIST- KEONJHAR, ORISSA, INDIA

Phone: 06767- 275221/277481/ 441; Fax: 91-6767-276161; GRAM: "RUNGTA"

Email: rungta_bbl@yahoo.co.in

FERRO ALLOY DIVISION

TULASIDIHA, MERAMANDLI -759121, DIST- DHENKANAL, ORISSA, INDIA

Phone: 06732-259231/ 241, Fax: 91-6764-234745

HEAD OFFICE

8A, EXPRESS TOWER, 42A, SHAKESPEARE SARANI

KOLKATA 700017, INDIA

Phone: 033-2281 6580/3751; Fax: 91-33-2281 5380; Email: rungta_cal@sify.com

(40)

REGISTERED Postal Registration
No. SSRM/KOL/WB/RNP-093/2007-09
Date of Publication - 28, July 2009
RNI Regd. No. 2868/68



True to our values.

True to our people.

True to our projects.

True to our selves.

**Tomorrow happens when
there is true partnership.**

There are companies that only finance instructions. And there are Companies that also finance dreams, aspirations and hopes. SREI, an Indian multinational, belongs to the latter. More than just financial products and services, SREI excels in offering customised, flexible, reliable and cost-effective solution. The focus clearly is on infrastructure equipment, projects and renewable energy resources through innovative financing and "true partnerships".

SREI not only enjoys a leadership position in the market today, but is also recognised as a people-centric company. This investment in human resource development and consistently acknowledging the blessings of god makes SREI a proud recipient of the Willis Harman Spirit at Work Award.

At SREI, it's the vision of tomorrow that fuels our passion. Propelling us to see tomorrow. Today.

WE MAKE TOMORROW HAPPEN.

SREI
INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED

Visit us at www.srei.com

ASSET FINANCING • INFRASTRUCTURE FINANCING • RENEWABLE ENERGY FINANCE • INVESTMENT BANKING • VENTURE CAPITAL • INSURANCE SERVICES

From :
All India Marwari Federation
152B, Mahatma Gandhi Road
Kolkata - 700 007
Ph : 2268 0319
E-mail : samajvikas@gmail.com

२९. श्री प्रदीप कुमार चौधरी	सराईकेला	४१. श्री राजकिशोर मोदी	रांची
३०. श्री बाबूलाल विजयवर्गीय	चाईबासा	४२. श्री राजकुमार केडिया	रांची
३१. श्री बसंत मित्तल	रामगढ़	४३. श्री राधेश्याम अग्रवाल	चाईबासा
३२. श्री बासुदेव प्रसाद बुधिया	रांची	४४. श्री राज कुमार मूँधड़ा	चाईबासा
३३. श्री बलराम सुलतानिया	चाईबासा	४५. श्री रमेश खेरीवाल	चाईबासा
३४. श्री भागचन्द पोद्दार (अध्यक्ष)	रांची	४६. श्री ललित जवानपुरिया	जमशेदपुर
३५. श्री भंवरलाल खण्डेलवाल	जमशेदपुर	४७. श्री विनय सरावगी	रांची
३६. श्री मुरलीधर केडिया	जमशेदपुर	४८. श्री विश्वनाथ नारसरिया	रांची
३७. श्री मनोहरलाल अग्रवाल	बोकारो	४९. श्री वेद प्रकाश अग्रवाल	रांची
३८. श्री महावीर प्रसाद जैन सोगानी	रांची	५०. श्री विनोद अग्रवाल	साहेबगंज
३९. श्री रूढ़मल अग्रवाल	जमशेदपुर	५१. श्री शिवकुमार मेहरिया	बोकारो
४०. श्री रतनलाल बंका	रांची	५२. श्री सुरेश कुमार जैन	डालटनगंज

तामिलनाडु

१. श्री इन्द्रसेन गोयल	चेन्नई	८. श्री विजय कुमार गोयल (महामंत्री)	चेन्नई
२. श्री कैलाशमल दुगड़ (अध्यक्ष)	चेन्नई	९. श्री शिव कुमार गोयनका	चेन्नई
३. श्री गौतम चन्द बोहरा	चेन्नई	१०. श्री श्याम सुन्दर गोयनका	चेन्नई
४. श्री गुलाब चन्द कोटड़िया	चेन्नई	११. श्री सम्पत राय चोरडिया	चेन्नई
५. श्री बालकृष्ण गोयनका	ईगमोर	१२. श्री हीरालाल चण्डालिया	चेन्नई
६. श्री मोहन गोयनका	चेन्नई	१३. श्री एम. शान्तिलाल जैन	चेन्नई
७. श्री रामअवतार अग्रवाल	चेन्नई		

दिल्ली

१. श्री एस. एस. सोनी	नोयडा	७. श्री मन्नालाल बैद	करोल बाग
२. श्री नरेश कुमार गुप्ता	पीतमपुरा	८. श्री राजकुमार अग्रवाल	दिल्ली
३. श्री पन्नालाल बैद (अध्यक्ष)	दिल्ली	९. श्री शशिकान्त अग्रवाल	कर्नाट प्लेस
४. श्री पवन कुमार गोयनका (महामंत्री)	दिल्ली	१०. श्री श्याम सुन्दर मौसन	करोल बाग
५. श्री पद्म कुमार बंसल	पश्चिम बिहार	११. श्री श्याम सुन्दर चमड़िया	पश्चिम पंजाबी बाग
६. श्री महेन्द्र कुमार शारदा	करोलबाग	१२. श्री संतोष कुमार गोयनका	पहाड़गंज

पश्चिम बंगाल

१. श्री अरुण गुप्ता	कोलकाता	१२. श्री गोविन्द अग्रवाल	कोलकाता
२. श्री ओम प्रकाश अग्रवाल	कोलकाता	१३. श्री गोविन्द शर्मा	हावड़ा
३. श्री अरविन्द बिहानी	कोलकाता	१४. श्री जयगोविन्द इंदोरिया	कोलकाता
४. श्री ओम लड़िया	कोलकाता	१५. श्री राजेश पोद्दार	कोलकाता
५. श्री अशोक कुमार अग्रवाल	कोलकाता	१६. श्री जुगल किशोर जैथलिया	कोलकाता
६. श्री अशोक पारीख	कोलकाता	१७. श्री जीनेन्द्र कुमार जैन	कोलकाता
७. श्री ओम प्रकाश गोयल	कोलकाता	१८. श्री जीवराज सेठिया	कोलकाता
८. श्री कैलाशपति तोदी	हावड़ा	१९. श्री डूंगरमल सुरेका	कोलकाता
९. श्री कृष्ण कुमार डोकानिया	कोलकाता	२०. श्री दिलीप कुमार गोयनका	कोलकाता
१०. श्री गीतेश शर्मा	कोलकाता	२१. श्री नवल जोशी	कोलकाता
११. श्री गोपाल अग्रवाल	कोलकाता	२२. श्री नीलमणि राठी	कोलकाता

बिहार

१. श्री अशोक भिवानीवाला	भागलपुर	३०. श्री महेश जालान	पटना
२. श्री अशोक कुमार खेमका	कहलगाव	३१. श्री मनोज जैन	भागलपुर
३. श्री अशोक कुमार तुलस्यान	मुंगेर	३२. श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल	बाघन
४. श्री ओम प्रकाश अग्रवाल	पटना	३३. श्री राजेश बजाज	पटना
५. श्री ओम प्रकाश टिबड़ेवाल	पटना	३४. डा. राम निरजन केंडिया	दरभंगा
६. श्री किशोरीलाल अग्रवाल	मुजफ्फरपुर	३५. श्री राम अवतार पोद्दार	पटना
७. श्री कैलाश प्रसाद झुनझुनवाला	पटना	३६. डा. रमेश कुमार केजड़ीवाल	मुजफ्फरपुर
८. श्री कमल नोपानी (अध्यक्ष)	पटना	३७. श्री राम गोपाल पोद्दार	भागलपुर
९. श्री गिरधारीलाल सराफ	पटना सिटी	३८. श्री राज कुमार अग्रवाल	कटिहार
१०. श्री गणेश कुमार खेमका	पटना	३९. श्री राजेश सिकरिया (महामंत्री)	पटना
११. श्री जुगल किशोर अग्रवाल	सुपौल	४०. श्री राजीव कुमार केजड़ीवाल	मुजफ्फरपुर
१२. श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल	मुंगेर	४१. श्री रामपाल अग्रवाल 'नूतन'	पटना
१३. श्री जगदीश प्रसाद मोहनका	पटना	४२. श्री राम दयाल मस्करा	बेगूसराय
१४. श्री देवकी नन्दन झुनझुनवाला	भागलपुर	४३. श्री राजीव केजरीवाल	मुजफ्फरपुर
१५. श्री निर्मल बोथरा	मुजफ्फरपुर	४४. श्री राम अवतार सराफ	नवगछिया
१६. श्री नवल किशोर सुरेका	मुजफ्फरपुर	४५. श्री लक्ष्मीनारायण डोकानिया	भागलपुर
१७. श्री नारायण प्रसाद कोटरीवाल	भागलपुर	४६. श्री विश्वनाथ केंडिया	सहरसा
१८. श्री निर्मल जालान	मुंगेर	४७. श्री विष्णु कुमार गोयनका	आरा
१९. श्री नगरमल बाजोरिया	पटना	४८. श्री विजय कुमार किशोरपुरिया	पटना
२०. श्री निर्मल झुनझुनवाल	पटना	४९. श्री विजय कुमार बुधिया	पटना
२१. श्री नन्द किशोर टेनवाला	पटना	५०. श्री विनोद तोदी	पटना
२२. श्री निर्मल गुटगुटिया	पटना	५१. प्रो. श्याम सुन्दर तुलस्यान	पटना
२३. श्री नथमल टिबड़ेवाल	मुजफ्फरपुर	५२. श्री शिव करण दूधवेवाला	पटना
२४. श्री नारायण प्रसाद अग्रवाल	मोतीपुर	५३. श्री शंकर लाल जैन	भागलपुर
२५. श्री प्रदीप कुमार सुरेका	मुंगेर	५४. श्रीमती सुषमा अग्रवाल	पटना
२६. श्री प्रहलाद शर्मा	पटना	५५. श्रीमती सरोज गुटगुटिया	पटना
२७. श्रीमती पुष्पा चोपड़ा	पटना	५६. श्री सीराम बाजोरिया	मुजफ्फरपुर
२८. श्री बादल चन्द्र अग्रवाल	पटना	५७. श्री सत्य नारायण तुलस्यान	मुजफ्फरपुर
२९. श्री मातादीन अग्रवाल	आरा		

मध्य प्रदेश

१. श्री अरुणकान्त अग्रवाल (अध्यक्ष)	जबलपुर	६. श्रीमती मंजू खण्डेलवाल	जबलपुर
२. श्री अनिल कुमार शर्मा	जबलपुर	७. श्री रमेश कुमार गर्ग (महामंत्री)	जबलपुर
३. श्री कमलेश कुमार नाहटा	जबलपुर	८. श्रीमती रश्मि अग्रवाल	जबलपुर
४. श्री प्रभात अग्रवाल	जबलपुर	९. श्री श्याम सुन्दर माहेश्वरी	जबलपुर
५. श्री मुकुन्द दास माहेश्वरी	जबलपुर	१०. श्री संतोष ओसवाल	जबलपुर

महाराष्ट्र

१. डॉ. जयप्रकाश शंकर लाल मुंघड़ा	बसमातनगर	८. श्री महेन्द्र कुमार पाटोदिया	पूना
२. श्री दामोदर किशनगोपाल लखानी	मल्कापुर	९. श्री रमेश चन्द्र गोपिकिशन बंग (अध्यक्ष)	नागपुर
३. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी	अहमदनगर	१०. श्री राजेश भगवान दास सोनी	जालना
४. श्री पोपटलाल भागचन्द औसवाल	पूना	११. श्री ललित सकलचन्द गांधी (महामंत्री)	कोल्हापुर
५. डॉ. पुरुषोत्तम एम. दरक	औरंगाबाद	१२. श्री शिवनाथ शर्मा	नागपुर
६. श्री भरत वी. गुर्जर	मुम्बई	१३. श्री सुखलाल जैन	जालना
७. श्री वीरेन्द्र धोका	जालना		

सम्मेलन के नये आजीवन सदस्यों का स्वागत



नाम : श्री विजय कुमार पिरोजीवाल
कार्यालय का पता :
मेसर्स— गोल्डन इलेक्ट्रिकल
रूंगटा मार्केट, चाईबासा, प. सिंहभूम
झारखण्ड — ८३३२०१
मोबाईल नं.—०९२३४७०७७८२



नाम : श्री अशोक कुमार सर्राफ
कार्यालय का पता :
मेसर्स— ग्लोब ट्रेडिंग कं.
सदर बाजार, चाईबासा, प. सिंहभूम
झारखण्ड — ८३३२०१
मोबाईल नं.—०९३०४१५३३३९



नाम : श्री शंकरलाल जालान
कार्यालय का पता :
मेसर्स— शंकर हार्डवेयर
सदर बाजार, चाईबासा, प. सिंहभूम
झारखण्ड — ८३३२०१
मोबाईल नं.—०९४३१९३२३१९



नाम : श्री अनिल के. जाजोदिया
कार्यालय का पता :
ए-५३, विराट ऐश्वर्या कॉम्प्लेक्स
डी-६३/५, जे. महमूरगंज
वाराणसी — १०
मोबाईल नं.—०९४१५२०१६४१



नाम : श्री विश्वनाथ गाड़ोदिया
कार्यालय का पता :
९, डोभर पार्क
कोलकाता — ७०० ०१९



नाम : श्री राधेश्याम अग्रवाल
कार्यालय का पता :
मेसर्स— ज्योति गैस एण्ड स्टेशनर्स
जिला परिषद सोप कॉम्प्लेक्स नं. — ६
बड़ा निमडीह, चाईबासा, प. सिंहभूम
झारखण्ड — (०६५८२) ८३३२०१
मोबाईल नं.—०९४३१३४१८३९



नाम : श्री बाबूलाल विजयवर्गीय
कार्यालय का पता :
मेसर्स— कुसुम फ्लोर मिल्स
महुल साई रोड, चाईबासा
प. सिंहभूम, झारखण्ड — ८३३२०१
मोबाईल नं.—०९२०४४००५८३



नाम : श्री कैलाश चन्द्र चौधरी
कार्यालय का पता :
तम्बाकू पट्टी, चाईबासा
प. सिंहभूम
झारखण्ड — ८३३२०१
मोबाईल नं.—०९२३४८७०५७०



नाम : श्री घनश्याम दास सिंघानिया
कार्यालय का पता :
सिंघानिया पैलेस, लक्की इण्डिया होटल
सुन्दरा बस्ती, पोस्ट बरबिल
क्योझर (उड़ीसा)
मोबाईल नं.—०९४३७१२६८९८



नाम : श्री कैलाशपति तोदरी
कार्यालय का पता :
१६, किशनलाल बर्मन रोड
बाधाघाट, सलकिया
हावड़ा—७१११०६
मोबाईल नं.—०९८३००४४०७९



नाम : श्री संजय जैन
कार्यालय का पता :
इन्टर स्टेट ओइल कैरियर लिमिटेड
११३, पार्क स्ट्रीट, पोद्दार पोइन्ट
साउथिंग, पाँचवा तल्ला, कोल—१६
मोबाईल नं.—०९८३००४१४७०




नाम : श्री राजकिशोर अग्रवाल
कार्यालय का पता :
नेहा इन्टरप्राइजेज
बेला रोड, समबोरटोटा
जैपोर—७६४००३, कोरापुट (उड़ीसा)
मोबाईल नं.—०९४३७०३०९७०

मेरा भारत महान

उठो धरा के अमर सपूतों

उठो, धरा के अमर सपूतों।
 पुनः नया निर्माण करो।
 जन—जन के जीवन में फिर से
 नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो।
 नया प्रात है नई बात है
 नई किरन है, ज्योति नई।
 नई उमंगें, नई तरंगें
 नई आस है, साँस नई।
 युग—युग के मुरझे सुमनों में
 नई—नई मुस्कान भरो।
 उठो, धरा के अमर सपूतों।
 पुनः नया निर्माण करो।१॥
 डाल—डाल पर बैठ विहग कुछ
 नए स्वर्गों में गाते हैं।
 गुन—गुन, गुन—गुन करते भंवरे
 मस्त उधर मँडराते हैं।
 नवयुग की नूतन वीणा में
 नया राग, नव गान भरो।
 उठो, धरा के अमर सपूतों।
 पुनः नया निर्माण करो।२॥
 कली—कली खिल रही इधर
 वह फूल—फूल मुस्काया है।
 धरती माँ की आज हो रही
 नई सुनहरी काया है।
 नूतन मंगलमय ध्वनियों से
 गुंजित जग—उद्यान करो।
 उठो, धरा के अमर सपूतों।
 पुनः नया निर्माण करो।३॥
 सरस्वती का पावन मंदिर
 शुभ संपत्ति तुम्हारी है।
 तुममें से हर बालक इसका
 रक्षक और पुजारी है।
 शत—शत दीपक जला ज्ञान के
 नवयुग का आह्वान करो।
 उठो, धरा के अमर सपूतों।
 पुनः नया निर्माण करो।४॥



द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी

जन्म: १ दिसंबर १९१६ को रोहता आगरा में।
 देहांत— २९ अगस्त १९९८ प्रकाशित
 रचनाएँ— ६ काव्यसंग्रह, २ खंड काव्य,
 २६ बाल साहित्य की पुस्तकें, ३ कथा
 संग्रह, ५ पुस्तकें नवसाक्षरों के लिए,
 ३ शिक्षा पुस्तकें और ग्रंथावली ३ भागों में।

प्रयाण गीत

वीर तुम बढ़े चलो! धीर तुम बढ़े चलो!
 हाथ में ध्वजा रहे बाल दल सजा रहे
 ध्वज कभी झुके नहीं दल कभी रुके नहीं
 वीर तुम बढ़े चलो! धीर तुम बढ़े चलो!
 सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो
 तुम निडर डरो नहीं तुम निडर डटो वहीं
 वीर तुम बढ़े चलो! धीर तुम बढ़े चलो!

प्रपात हो कि रात हो संग हो न साथ हो
 सूर्य से बढ़े चलो चंद्र से बढ़े चलो
 वीर, तुम बढ़े चलो धीर, तुम बढ़े चलो।

एक ध्वज लिए हुए एक प्रण किए हुए
 मातृ भूमि के लिए पितृ भूमि के लिए
 वीर तुम बढ़े चलो! धीर तुम बढ़े चलो!

अन्न भूमि में भरा वारि भूमि में भरा
 यत्न कर निकाल लो रत्न भर निकाल लो
 वीर तुम बढ़े चलो! धीर तुम बढ़े चलो!

— द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी —

बसंत गीत

माँ! यह बसंत ऋतुराज री!
 आया लेकर नव साज री!

मह—मह—मह डाली महक रही
 कुहु—कुहु—कुहु कोयल कुहुक रही
 संदेश मधुर जगती को वह
 देती बसंत का आज री!
 माँ! यह बसंत ऋतुराज री!

गुन—गुन—गुन भौर गुंज रहे
 सुमनों—सुमनों पर घूम रहे
 अपने मधु गुंजन से कहते
 छाया बसंत का राज री!
 माँ! यह बसंत ऋतुराज री!

मृदु मंद समीरण सर—सर—सर
 बहता रहता सुरभित होकर
 करता शीतल जगती का तल
 अपने स्पर्शों से आज री!
 माँ! यह बसंत ऋतुराज री!

फूली सरसों पीली—पीली
 रवि रश्मि स्वर्ण—सी चमकीली
 गिर कर उन पर खेतों में भी
 भरती सुवर्ण का साज री!
 माँ! यह बसंत ऋतुराज री!

माँ! प्रकृति बसंत पीले पहिने
 आई इसका स्वागत करने
 मैं पहिन बसंती बसंत फिरूँ
 कहती आई ऋतुराज री!
 माँ! यह बसंत ऋतुराज री!

सम्मेलन के नये संरक्षक सदस्य




संरक्षक सदस्य संख्या - ०७३
नाम : श्री रघु हरि डालमिया
पत्नी का नाम : श्रीमती पद्मा डालमिया
पिता का नाम : स्व. श्री जयदयाल डालमिया
कार्यालय का पता :
ओ.सी.एल. इण्डिया प्रा. लि.
११वां तल्ला, नारायण मंजिल
२३, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली
दूरभाष : ०११-४३६२१२००
फैक्स : ०११-४१५०१३३३
ई-मेल : rhdalmia@ocl.in
निवास का पता
१, तीस जनवरी मार्ग, नई दिल्ली - ११००११



संरक्षक सदस्य संख्या - ०७४
नाम : बी.एम.ए. स्टेनलेश लि.
प्रतिनिधि : श्री दशरथ कुमार गुप्ता
पद : प्रबंध निदेशक
कार्यालय का पता :
२१ए, शेक्सपीयर सर्गो, १०वां तल्ला
फ्लैट नं. - 10A & 10B, कोलकाता - १७
दूरभाष : ०३३-४०११२५२५
फैक्स : ०३३-४००६४०३६
मोबाईल : ०९७४८४६६६१६
ई-मेल : captain@bmaind.com
निवास का पता :
रजनी गंधा अपार्टमेंट लि.
चौथा तल्ला, २५बी, बालीगंज पार्क
कोलकाता - ७०० ०१९



संरक्षक सदस्य संख्या - ०७५
नाम : गजानन ओरेज प्रा. लि.
प्रतिनिधि : श्री नीतिन महेश्वरी
पद : प्रबंध निदेशक
कार्यालय का पता :
५३४, आशियाना ट्रेड सेंटर, आदित्यपुर, जमशेदपुर
दूरभाष : ०६५७-२३८३८५५/५६/५७
फैक्स : ०६५७-२३८३७८८
मोबाईल : ०९३३४८२०५६६
ई-मेल : nitin@gajanangroup.com
निवास का पता :
ई-४, महाराजी मैसन, ३६, सी.एच.एरिया (ओल्ड)
जमशेदपुर - ८३१००१



संरक्षक सदस्य संख्या - ०७६
नाम : श्री जगन्नाथ मेटालिक इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
प्रतिनिधि : श्री राजकुमार अग्रवाल
पद : निदेशक
कार्यालय का पता :
हरीपुर रोड, कटक-७५३००१ (उड़ीसा)
दूरभाष : (०६७१) २४२३२२१
फैक्स : (०६७१) २४२५९३१
मोबाईल : ०९९३७०८८२७३
ई-मेल : shreejagannath@hotmail.com
निवास का पता :
श्री जगन्नाथ भवन
काठगोदामसाही, कटक-७५३००१ (उड़ीसा)



संरक्षक सदस्य संख्या - ०७७
नाम : श्री जगन्नाथ ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
प्रतिनिधि : श्री जगदीश प्रसाद पांडेया
पद : निदेशक
कार्यालय का पता :
हरीपुर रोड, कटक-७५३००१ (उड़ीसा)
दूरभाष : ०६७१-२४२३२२१
फैक्स : ०६७१-२४२५९३१
मोबाईल : ०९४३७०२३४६१
ई-मेल : shreejagannath@hotmail.com
निवास का पता :
श्री जगन्नाथ भवन
काठगोदामसाही, कटक-७५३००१ (उड़ीसा)



संरक्षक सदस्य संख्या - ०७८
नाम : ओम शारदा लोजिस्टिक्स प्रा.लि.
प्रतिनिधि : श्री संदीप कावरा
पद : निदेशक
कार्यालय का पता :
१९१/१, डीहीबाड़ी, काशीडीह रोड, साक्ची
जमशेदपुर - ८३१००१, झारखण्ड
दूरभाष : (०६५७) ६५७६९१६ / ३२४२०३४
फैक्स : (०६५७) २४२८७५०
मोबाईल : ०९४७११९००१३ / ०९४३१११०६१५
ई-मेल : omshardalog@sify.com
निवास का पता :
१९१/१, डीहीबाड़ी, काशीडीह रोड, साक्ची
जमशेदपुर - ८३१००१, झारखण्ड



संरक्षक सदस्य संख्या - ०७९
नाम : अजय भिनरल एण्ड स्टील प्रा.लि.
प्रतिनिधि : श्री दीनदयाल पोद्दार
कार्यालय का पता :
पावर हाउस रोड, राउरकेला - १
दूरभाष : ०६६१-२५१३५१९
फैक्स : ०६६१-२५१३५१९
मोबाईल : ०९४३७०४८६००
निवास का पता :
पावर हाउस रोड, राउरकेला - १



संरक्षक सदस्य संख्या - ०८०
नाम : ओरियड मेटालिक्स प्रा.लि.
प्रतिनिधि : श्री अमित बरलिया
पद : निदेशक
कार्यालय का पता :
जी/१७, बुद्धगाम ओगम मार्केट
प्रथम तल, कचहरी रोड, राउरकेला - १२
दूरभाष : (०६६१) २५१४३२६
मोबाईल : ०९४३७१२६०९८
ई-मेल : oread_rkl@yahoo.com
निवास का पता :
ईएम/३, बसन्ती कालोनी
राउरकेला - १२ (उड़ीसा)

सम्मेलन के नये संरक्षक सदस्य



संरक्षक सदस्य संख्या - ०८१
नाम : ब्रिजलाल द्वारका प्रसाद चेरिटेबल ट्रस्ट
प्रतिनिधि : श्री सजीव कुमार डावडीवाल
पद : मैनेजिंग ट्रस्टी
कार्यालय का पता :
"आनन्द अपार्टमेंट"
२, गैलैण्ड रो, प्रथम तल्ला
कोलकाता - ७०० ०२०
दूरभाष : ०३३-३०५२०५१८
फैक्स : ०३३-३०५३७७६३
मोबाईल : ०९८३१८७७७६२
ई-मेल : riddhisiddhidevelopers@gmail.com
निवास का पता :
"आनन्द अपार्टमेंट"
२, गैलैण्ड रो, प्रथम तल्ला
कोलकाता - ७०० ०२०



संरक्षक सदस्य संख्या - ०८२
नाम : प्रेमको रेल इंजीनियरिंग लि.
प्रतिनिधि : श्री प्रेम कुमार लिहला
पद : प्रबंध निदेशक
कार्यालय का पता :
बी-३०४, सिटी सेंटर, कोलकाता - ७०० ०६४
दूरभाष : (०३३) २३५८९१००
फैक्स : ०३३-२३५८९१०२
मोबाईल : ०९८३००६७१००
ई-मेल : info@premcogroup.com
निवास का पता :
आर-५०१, रेसिडेंसी, सिटी सेंटर
साल्ट लेक, कोलकाता - ७०० ०६४



संरक्षक सदस्य संख्या - ०८३
नाम : श्री श्याम इवैलर्स इण्डिया लिमिटेड
प्रतिनिधि : श्री सज्जन कुमार सराफ
पद : निदेशक
कार्यालय का पता :
१५१ए, कॉर्टन स्ट्रीट, कोलकाता - ७
दूरभाष : ०३३-२२५८२३५७ / २०८६
मोबाईल : ०९७४८७६०९६७
ई-मेल : adacamp@gmail.com



संरक्षक सदस्य संख्या - ०८४
नाम : रंगपुर टी एसोशियेशन लिमिटेड
प्रतिनिधि : श्री किनोद कुमार अग्रवाल
पद : निदेशक
कार्यालय का पता :
पी-३, न्यू सी.आई.टी. रोड, दूसरा तल्ला
कोलकाता - ७०० ०७३
दूरभाष : (०३३) २२३७२८२५
फैक्स : (०३३) २२२५३९६९
मोबाईल : ०९४३४०५११२०
ई-मेल : gshipvttd@sify.com
निवास का पता :
२१/ए, काशी दत्ता स्ट्रीट, कोलकाता



संरक्षक सदस्य संख्या - ०८५
नाम : श्री जगन्नाथ फिनवेस्ट लिमिटेड
प्रतिनिधि : श्री दाऊ दयाल अग्रवाल
पद : निदेशक
कार्यालय का पता :
हरीपुर रोड, कटक - ७५३००१ (उड़ीसा)
दूरभाष : ०६७१-२४२३२२१
फैक्स : ०६७१-२४२५९३१
मोबाईल : ०९४३७०२९६३५
ई-मेल : shreejagannath@hotmail.com
निवास का पता :
श्री जगन्नाथ भवन
काठगोदासाही, कटक-७५३००१ (उड़ीसा)



संरक्षक सदस्य संख्या - ०८६
नाम : अग्रवंशी मिनारल्स
प्रतिनिधि : श्री नन्द किशोर अग्रवाल
पद : मालिक
कार्यालय का पता :
'अग्रवंशी हाउस'
जनता निवास लेन, डेली मार्केट
गउरकेला, (उड़ीसा)
दूरभाष : (०६६१) २५१३५६०
फैक्स : (०६६१) २५१३५६०
मोबाईल : ०९४३७०४७४६२
ई-मेल : info@agravanshi.com
निवास का पता :
'अग्रवंशी हाउस'
जनता निवास लेन, डेली मार्केट
गउरकेला, उड़ीसा



संरक्षक सदस्य संख्या - ०८७
नाम : एशोसियेटेड रोड कैरियर्स लि.
प्रतिनिधि : श्री बनबारीलाल शर्मा
पद : निदेशक
कार्यालय का पता :
'ओम टावर'
३२, जवाहरलाल नेहरू रोड, नौवा तल्ला
कोलकाता-७०० ०७१
दूरभाष : ०३३-२२२६५७९५
फैक्स : ०३३-२२२७५६०५
मोबाईल : ०९८३००५६५७८
ई-मेल : cal@arclimited.com
निवास का पता :
माइका हाउस
२ए, प्रीटोरिया स्ट्रीट, कोलकाता - ७०० ०७१



संरक्षक सदस्य संख्या - ०८८
नाम : दयाल स्टील लिमिटेड
प्रतिनिधि : श्री विजय कुमार हरलालका
पद : प्रबंध निदेशक
कार्यालय का पता :
होटल पार्क कैम्पस, मेन रोड
रामगढ़ कैंट, रामगढ़ (झारखण्ड)
दूरभाष : (०६५५३) २२१०४२/२२६७५०
फैक्स : (०६५५३) २२१०४१
मोबाईल : ०९३३४३३१३२२/९४३१०१५९८२
ई-मेल : dayalsteel@gmail.com
निवास का पता :
मनोहरपुर, सिंहभूम

Comprehensive and Exclusive

Business Economics

... Truly reflecting global aspirations!

Subscribe

100% Bargain




Over-night travel bag worth Rs. 360/-
OR
Books with every 1 year subscription



Travel bag + Books worth Rs. 1080/-

OR

Books worth Rs. 1080/- with every 3 years subscription



Business Economics

Subscription Form

Yes! I would like to subscribe **Business Economics**

Tick	Term	No. of Issues	Price you pay	Gift Value	Saving	Gift Option
<input type="checkbox"/>	3 Years	72	1080/-	1080/-	1080/-	<input type="checkbox"/> Travel Bag + Books OR <input type="checkbox"/> Books
<input type="checkbox"/>	1 Year	24	360/-	360/-	360/-	<input type="checkbox"/> Over-night Travel Bag OR <input type="checkbox"/> Books

Name : Mr./Ms. _____

Address _____

City/District : _____

State : _____ Country : _____ Pin Code :

E-mail : _____ Mobile : _____ Landline : _____

STD CODE

REMITTANCE DETAILS :

Enclosed Cheque / DD No. _____ dated: _____ for Rs. _____ drawn on: _____

In favour of CONTEMPORARY NEWS PRIVATE LIMITED

Signature: _____ date: _____

Mail your Cheque / DD to : Mr. Pramod Kr. Singh, General Manager, **Business Economics**, 3, Middle Road, Hastings, Kolkata - 700 022
Ph : 033 - 2223 0335/0368, Mobile : 93395 19642, E-mail : subscriptions@businesseconomics.in

For Subscription enquiries contact :

Kolkata : Ms. Sumita Agarwal : 033 2223-0368 • New Delhi : Lala P. Yadav : 98102 10095
Chennai : Ms. S. Bhuvaneshwari : 98416 54257 • Kohima : Povoiso Lohe : 94360 00860

राजस्थानी शब्दकोष

किसी भी समाज के लिये उसकी मातृभाषा का महत्व सबसे अधिक होता है। 'गर्व से कहो हम राजस्थानी हैं' — नारा देने वाला समाज अपनी भाषा से शनैः-शनैः दूर होता जा रहा है। घर-परिवार में आपसी बातचीत में मारवाड़ी का प्रयोग लगातार कम हो रहा है। अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन ने सदैव राजस्थानी भाषा एवं साहित्य की समृद्धि एवं मान्यता के लिए कार्य किया है। इसी संदर्भ में 'समाज विकास' के इस अंक में हम 'राजस्थानी शब्द कोश' शीर्षक के अन्तर्गत कुछ प्रचलित शब्दों को प्रकाशित कर रहे हैं। अंग्रेजों के प्रभुत्व को स्वीकार करते हुए इन शब्दों को अंग्रेजी में अनुवाद भी प्रकाशित किया जा रहा है। ज्ञात हो कि मण्डावा के श्री केसरीकांत शर्मा 'केसरी' ने भी इस दिशा में काफी कार्य किया है। आशा है समाज के भाई बहन इसका लाभ उठाएंगे। — सम्पादक

A

Aachho आछो - good
 Aabh आभ - sky
 Aago आगो - away, far
 Aagal आगळ - wooden rod to fasten the leaves of a door
 Aaglo आगलो - foremost
 Aagunch अगूच - advance
 Aajyo आज्यो (आवजो) - request to come
 Aakdo आकड़ो - medicinal shrub plant with big leaves and bad odour botanical name Callotropis procera
 Aakhar आखर - word
 Aambli आंबली - tamarind
 Aambo आंबो - mango
 Aangi आंगी - traditional blouse worn by ladies
 Aangli आंगळी - finger
 Aa'dhi आ'धी - windstorm, blind woman
 Aank आंक - numbers
 Aakro आकरो - heavy
 Aankharli आंखड़ली - a song sung when the husband of daughter comes first time to his in-laws, eye
 Aankharliyan आंखड़ल्यां - eyes
 Aa'ndho आ'ंधो - blind man
 Aantro आंतरो - distance, interval
 Aanwati आवती - future
 Aapanon आपणों - ours
 Aavaili आवैली - will come (female)
 Aavailo आवैलो - will come (male)
 Aavjo आवजो - request to come
 Aavno आवणौ - to come
 Aba'r अबार - very recently, now
 Adao अडावो - land kept for grazing of animals

Adane अडाणै - kept on mortgage
 Aik ऐक - one
 Ai औ - these
 Algo अळगो - away, far
 Anan sanan अनाण सनाण - distinguishing feature
 Anjanyau अणजाण्यू - un-known
 Anhui अणहुई - not happened
 Ar अर - and
 Ardano अरडाणो - call of cattle
 Athai अठै - here
 Athwado अठवाडो - food material left in dish

B

Baachhi बाछी - Young cow
 Baagar बागर - bundles of bajra (Poola) stacked properly for future use
 Baal बाळ - to burn, air, hair
 Baan बान - Ganesha puja ceremony at the beginning of a marriage
 Baanch बांच - to read
 Baan'ka बांका - theirs
 Baasedo बासेडो - festival in which people worship "Sheetla Mata," the goddess of small-pox on Sheetla Ashtama day; People don't cook any food and would eat the food made of earlier day. They make seven dishes, the day before and then do pooja and they eat those the whole day. Small pox is supposed to be caused by heat, that is the myth behind this festival.
 Baante बांटे - lease, batai of a land
 Baanth-bojha बांठ-बोझा - same as 'sood'
 Baarai बारै - outside
 Baaro kado बारो काडो - to take one turn of taking water from a well
 Babo बाबो - Tau, father's elder brother
 Bachyoda बच्योडा - left out, balance
 Badali बादळी - cloud

Badera बडेरा - ancestors
 Badhavo बघावो - Song sung when daughter is sent to sasural (in-laws)
 Badhnon बघणों - to grow
 Badka बड़का - ancestors
 Badkulya बड़कुल्या - round dish type of items made from cow dung with hole at centre for garland making
 Bai बै - they
 Baidhaki बैढकी - Pregnant young cow
 Bain बैन - Sister
 Bajraq बजराक - a fatal weapon, the thunderbolt of Indra
 Bajro बाजरो - a desert cereal crop which is most common food grain
 Baju Bandh बाजूबंध - armband
 Balaji बालाजी - Lord Hanuman
 Balam बालम - husband, Lover
 Balyee बाळी - silly woman (called with love)
 Balyo बाळयो - silly man (called with love)
 Balno बाळणों - to burn
 Bangari बंगड़ी - golden bangles
 Baman बामण - brahman
 Banithani बणीठणी - lady properly dressed with appropriate makeup and ornaments
 Banko बांको - bent
 Bans बांस - foul smell, bamboo
 Baonli बांळी - plant with botanical name Acacia jacquemontii used as fodder and its roots used as dyeing material for leather
 Barai kado बारै काडो - to take out
 Bari बारी - Window
 Barno बारणो - Gate
 Bapji बापजी - A respectful words like His highness, Sir.
 Bapkano बापकाणों - silly man (with a bad taste)
 Bardi बरडी - a woolen blanket made of black and white wool in check pattern
 Bark बरक - fatigue and stress in muscles due to excessive work
 Baru बरु - weed resembling bajra crop which is a good fodder for cows
 Baste बास्ते - fire
 Batewo बटेऊ - guest

Bathai बठै - there
 Batko बाटको - an utensil of bronze metal in the shape of a middle plate with round corners, it is also the term for money offered as gift
 Baulai बाँळई - sector in a residential campus used to dry up the gober of cattle and prepare thepadi etc
 Bavji बावजी - God,
 Bawli बावळी - mad (woman)
 Bawlo बावळो - mad (man)
 Bawalyo बावळयो - Babool
 Bayee बाई - sister
 Beed बीड - grazing land
 Beejno बीजणो - sowing seeds
 Beejnon बीजणों - a hand fan
 Beejoliyo बीजोलियो - a bag made of cloth to keep the seeds for sowing by a farmer in field
 Been बीन - bridegroom
 Beend बींद - bridegroom
 Beendni बींदणी - bride
 Beerī बीरी - Sister
 Beero बीरो - Brother
 Bekario बेकरियो - herbal plant with botanical name Indigofera cordifolia which is a good fodder for camel
 Bekaro बेकरो - sand
 Bero बेरो - information, to know
 Besh बेश - pair of chunadi and ghagra gifted to ladies
 Bhaan भाण - sister
 Bhaanej भाणेज - sister's son
 Bhaat भात - also called Mayero, maternal uncles bring gifts for the Mother, Cooked rice.
 Bhaant भांत - Variety
 Bhankadi भांकडी - a grass with spiny fruits very much liked by camel as a feed and having medicinal values for curing stones
 Bhapan भापण - eyelash
 Bhar भर - a long radiating sand dune found in desert which are formed due to piling up of shifting sand
 Bharauti भरौटी - headload of grass for feeding cattle

Bharautiyo भरौटियो - headload of fuel for burning

Bharoont भरूंट - a good fodder grass with spiny flowers palatable by animals, botanical name- Cenchrus setigerus

Bhartar भरतार - husband

Bhaut भौत - very much, plenty of things

Bhayli भायली - female friend

Bhaylo भायलो - male friend

Bhayo भायो - Brother

Bhavat भावत - brother's wife, bhabhi

Bheench भींच - to press

Bheent भींत - wall

Bheli भेली - a compacted mass of gur

Bheli भेली - collected, together

Bhojai भोजाई - brother's wife, bhabhi

Bhoowa भुवा - Paternal aunt

Bhopa भोपा - a community that earns their living through singing songs of heroic persons depicted on phads made of canvas

Bhotar भोतर - next birth

Bhuari भुवारी - a broom stick

Bhujano भुजाणो - erase

Bilia बिलिया - plastic or ivory bangles

Bilowano बिलोवणो - churning milk

Binani बीनणी - wife, groom

Birakha बिरखा - rain

Bobo बोबो - breast of female

Bodo बोदो - old, a weak boy

Bolo बोळो - very much, deaf

Borlo बोरलो - ornament put on forehead by ladies

Bui बुई - a herbal plant with white flowers and leathery leaves. It is used as a medicine for burns and stomach pain, botanical name Aerva tomentosa

Byagi ब्यागी - delivery of female animal

Byav ब्याव - marriage

C

Chaak चाक - ceremony to worship the wheel of kumhar at the time of marriage of a boy or girl

Chaav चाव - like

Chanani चानणी - light of moon, tent put in functions, coloured overhead tent

Charko चरको - taste mix of salt and chilly

Charo चारो - fodder

Chau चऊ - lower iron part of plough

Chaubaro चौबारो - first floor room, open from all sides

Chaudai-dhadai चौडै-धाडै - in day light

Chaudhar चौधर - justice

Chaudhary चौधरी - village head, one who does justice

Chaumaso चौमासो - rainy season

Cheedo चीडो - difficult to bite

Cheel चील - kite

Cheela चीला - railway track, rajasthani dosa

Cheelgadi चीलगाडी - aeroplane

Chhak छक - brunch of a farmer

Chhalo(Chhaj) छालो - an utensil made of primarily sticks used to sort out grain

Chhana छणा - dried cow dung

Chhanon छानों hidden

Chhanta छांटा - rain-drops

Chhav छाव - animal in heat

Chhinki छींकी - a net made of rope put on mouth of an animal to prevent grazing

Chhori छोरी - girl

Chhoro छोरो - boy

Chhuchhak छुछक - a ceremony performed by maternal side after a month of child birth

Chintho चिंथो - to crush

Chirkali चिड़कली - bird, house sparrow

Chirmarat चिरमराट - pinching

Chokha चोखा - Nice, good looking

Chokhi चोखी - good looking

Chokho चोखो - good

Choliyo चोळियो - shirt

Choon चून - flour

Choondi चूंदड़ी - traditional Chunni made of bandhej, brother would bring this as a gift for sister in bhat (Mayro) at marriage of her child

Choongyo चूनग्यो - lost the way

Chotiyo चोटियो - a woolen wear used by children to cover the body

Choutho चौठौ - village common place, chaupal

Chunadi चूनड़ी - rajasthani print audhana

Chunyodi चुण्योड़ी - elected

Chyarankani च्यारांकानी - in all sides